



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22—मई 28, 2004 (ज्येष्ठ 01, 1926)  
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22—MAY 28, 2004 (JYAISTHA 01, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से  
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry  
of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल, 2004

सं. 233, दिनांक, 15 अप्रैल 2004—राष्ट्रपति महोदय स से मु  
सिविल सेवा नियमावली, 2001 के नियम 7(8) के अधीन निम्नलिखित  
सहायकों को अनुभाग अधिकारी के रूप में उनके नाम के सामने  
लिखी तारीख से दिनांक 24 फरवरी, 2004 तक अथवा नियमित  
पदधारी उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो, उस समय तक  
नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री गुलशान राय	30 अक्टूबर 1968	22 दिसम्बर 2003
2.	श्री पी पी पुवगल	05 अगस्त 1960	22 दिसम्बर 2003
3.	श्री बिरजीब सिंह	13 जुलाई 1965	22 दिसम्बर 2003
4.	श्री के एन प्रसाद	26 अक्टूबर 1965	23 दिसम्बर 2003
5.	श्रीमती ए श्रीनिवासन	30 अप्रैल 1945	01 जनवरी 2004

ये नियुक्तियां अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि से  
प्रभावी होंगी।

ये नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में की गई हैं  
और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध  
होने पर पूर्व सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

गु.आ.म.नि./भण्डार

राष्ट्रपति सहर्ष श्री एस के मल्होत्रा, सहायक को 05 फरवरी 04  
(पूर्वाह्न) से 24 फरवरी 04 तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा  
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित) के  
रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति न्यायालयों में लंबित वारिष्ठता एवं पदोन्नति से  
संबन्धित मामलों में निर्णय के परिपालन में सहायक संशोधन के  
अधीन है।

समीक्षक सहायक

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी/प्रशा.

सं. 234, दिनांक 16 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित कमीशन प्रदान करते हैं:-

प्रादेशिक सेना

ले. बनाया जाता है

ले. पिकी आइजाक टीए(एन)-1112, एम एन एस--13 सितम्बर 2003

ले. इलिजाबेथ लाल टीए(एन)-1113, एम एन एस--13 सितम्बर 2003

एम एल शर्मा  
अवर सचिव

-----

सं. 235, दिनांक 21 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

//

(ले. के पद पर 14 जून 2003 से)

निम्नलिखित 112 नियमित पाठ्यक्रम (112 डाइरेक्ट एन्ट्री, 102 एनडीए तथा 79 एसीसी) के कैंडिडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 जून 2003 से स्थायी रूप से विशेष सेना निर्देश ए/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री) सेना निर्देश 53/78 को विसेनि ए/एस/74 को साथ पढ़ा जाए (एनडीए), सेना निर्देश 55/73 (एसीसी) के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

नाम आई सी नम्बर आर्म/सर्विस
राज सिंह दुहान, 62957एफ, ईएमई
अजीत खत्री, 62958के, ईएमई
एन्टोनी जोसफ, 62959एम, एडी
कपिल खण्डूरी, 62960एफ, मेक.
रितेश रामनिवास लड़ा, 62961के, इन्फैन्ट्री
निखिल भारद्वाज, 62962एम, एसी
अंकुर भट्ट, 62963पी, इंजीनियर
विनायक, 62964एक्स, इन्फैन्ट्री
दमनजीत सिंह विरक, 62965ए, एओसी
राकेश टोकस, 62966एच, इन्फैन्ट्री
विकास मलिक, 62967एल, एएससी
मानस नय्यर 62968एन, आर्टी
अनिल के 62969डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
प्रदीप कुमार, 62970एल, इन्फैन्ट्री

मोहित सहाय, 62971एन, आर्टी
बेन्जी जॉर्न थामस, 62972डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
करन भाटिया, 62973वाई, इन्फैन्ट्री
रणजीत सिंह पठानिया, 62975के, एसी
रचित शर्मा 62976एम, आर्टी
राहुल कंवर, 62977पी, एएससी
राहुल वातस्यायन, 62978एक्स, आर्टी
प्रतीक शर्मा 62979ए, इन्फैन्ट्री
गोरव सिंह, 62980पी, एसी
विनोद कुमार एस रचनावर, 62981एक्स, सिग्नल
प्रशांत कुमार सिंह, 62982ए, इन्फैन्ट्री
रजनीश कुमार, 62983एच, इंजीनियर
राहुल अग्रवाल, 62984एल, इन्फैन्ट्री
के विजय आनंद, 62985एन, आर्टी
विश्वास आर नाम्बीयर, 62986डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
निकित बिष्ट, 62987वाई, इन्फैन्ट्री
आर राघवन, 62988एफ, इन्फैन्ट्री
राजीव कुमार यादव, 62989के, एओसी
पारस रैहनी, 62990वाई, इंजीनियर
तरुणेंद्रु प्रताप सिंह, 62991एफ, इन्फैन्ट्री
विवेक महाजन, 62992के, मेक.
साकेत रावत, 62993एम, मेक.
श्री रघुविंद्रा प्रभु, 62994 पी, आर्टी
अरवि शर्मा, 62995एक्स, एओसी
सुनील कुमार, 62996ए, आर्टी
विनय कुमार थापा, 62997एच, एएससी
शिबम, 62998एल, आर्टी
बिन्सु मैथ्यु चैरिन, 62999एन, एएससी
राजेश कुमार भारद्वाज, 63000पी, एडी
रामेन्दर सिंह, 63001एक्स, इन्फैन्ट्री
शीशपाल सिंह रावत, 63002ए, मेक.
प्रदीप शर्मा, 63003एच, इन्फैन्ट्री
निखिल कपूर, 63004एल, एडी
राकेश कुमार सिंह, 63005एन, एओसी

राम कुमार सिंह, 63006डब्ल्यू, आर्टी  
 अंकित सूद, 63007वाई, इन्फैन्ट्री  
 नीरज मारवाह, 63008एफ, एसी  
 कमलेश कुमार सिंह, 63009के, इन्फैन्ट्री  
 विनय कुमार, 63010वाई, इन्फैन्ट्री  
 संजय बिष्ट, 63011एफ, इन्फैन्ट्री  
 विनित कुमार सिंह, 63012के, इन्फैन्ट्री  
 अतुल उत्तमराव गरजै, 63013एम, आर्टी  
 योगेन्द्र दत्त शर्मा, 63014पी, इन्फैन्ट्री  
 विवेक इल्लावकुन्थ, 63015एक्स, आर्टी  
 अमित सैनी, 63016ए, इन्फैन्ट्री  
 आशिष कुमार, 63017एच, इन्फैन्ट्री  
 आशिष आनंद अभयकर, 63018एल, आर्टी  
 ऋषिकेश शर्मा, 63019एन, एओसी  
 अनुराग तलवार, 63020एच, इंजीनियर  
 सुमित थगट, 63021एल, सिग्नल  
 आशुतोष कुमार सिंह, 63022एन, एएससी  
 लांगे घिरोग लैप्चा, 63023डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 रवि राजन, 63024वाई, आर्टी  
 अभिषेक भारती, 63025एफ, एडी  
 गजेन्द्र कुमार, 63026के, एओसी  
 आदित्य कपूर, 63027एम, आर्टी  
 विवेक सब्वाल, 63028पी, इन्फैन्ट्री  
 अरुण यादव, 63029एक्स, इन्फैन्ट्री  
 खुन्दाकपम जार्ज सिंह, 63030एम, एओसी  
 अनुजय भौमिक, 63031पी, इन्फैन्ट्री  
 आशुतोष सिंह, 63032एक्स, इन्फैन्ट्री  
 तुषार सिंह तोमर, 63033ए, इन्फैन्ट्री  
 मोहित चौहान, 63034एच, इन्फैन्ट्री  
 आदर्श सिंह परिहार, 63035एल, इन्फैन्ट्री  
 सारांश निगम, 63036एन, इन्फैन्ट्री  
 कौशल भाटिया, 63037डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 रजत सिंह जस्वाल, 63038वाई, एसी  
 रवि शेखर मिश्रा, 63039एफ, इन्फैन्ट्री

हिमांशु पांडेय, 63040डब्ल्यू, एएससी  
 प्रणय श्रीवास्तव, 63041वाई, इन्फैन्ट्री  
 जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, 63042एफ, आर्टी  
 रवि सिंह बघेल, 63043के, इन्फैन्ट्री  
 भवतोष दास, 63044एम, इन्फैन्ट्री  
 अश्वनि जोशी, 63045पी, इन्फैन्ट्री  
 प्रवीन जाखड, 63046एक्स, इन्फैन्ट्री  
 मैथ्यु चेरियन, 63048एच, आर्टी  
 गौरव किचलू, 63049एल, इन्फैन्ट्री  
 श्रीधर वी, 63050ए, आर्टी  
 जगप्रीत सिंह, 63051एच, एसी  
 राकेश कटोच, 63052एल, इन्फैन्ट्री  
 विक्रम दास, 63053एन, एएससी  
 आशिष रावत, 63054डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 सचिन जैन, 63055वाई, एडी  
 गोपाल अज्याल, 63056एफ, मेक.  
 सुदीप घटक, 63057के, इन्फैन्ट्री  
 ध्रुव राहेजा, 63058एम, एसी  
 विपुल गुप्ता, 63059पी, आर्टी  
 आदित्या पुरी, 63060के, इंजीनियर  
 विनीत कुमार, 63061एम, एसी  
 विक्रम सद्दोत्रा, 63062पी, इन्फैन्ट्री  
 मुकेश कुमार झा, 63063एक्स, इन्फैन्ट्री  
 पियुश एस कटल, 63064ए, आर्टी  
 संदीप राणा, 63065एच, इन्फैन्ट्री  
 सौरभ लहरी, 63066एल, सिग्नल  
 अमित भटनागर, 63067एन, एडी  
 पंकज पाल, 63068डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 दीपक राणा, 63069वाई, इन्फैन्ट्री  
 पुण्यश्लोक ब्रह्मा, 63070एन, आर्टी  
 धाढगे विशाल शिवाजी, 63071डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 महिपाल लाटर, 63072वाई, इन्फैन्ट्री  
 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 63073एफ, आर्टी  
 गुरुतेज सिंह, 63074के, इन्फैन्ट्री

मनीन्द्रपाल, 63075एम, इन्फैन्ट्री  
 नैत्राजित चौगथम, 63076पी, आर्टी  
 अमित कुमार सिहाग, 63077एक्स, इन्फैन्ट्री  
 विशाल के दिवातगी, 63078ए, एएससी  
 गोरव वशिष्ठ, 63079एच, आर्टी  
 थामस सिबेस्टियन, 63080एक्स, इन्फैन्ट्री  
 सुनील कुमार चौबे, 63081ए, इन्फैन्ट्री  
 रत्नदीप दास, 63082एच, आर्टी  
 सौरभ वत्स, 63083एल, एडी  
 बंडी प्रवीण अरुण, 63084एन, आर्टी  
 जगदीश चन्द्र पंत, 63085डब्ल्यू, एओसी  
 निशांत अरविन्द, 63086वाई, आर्टी  
 प्रशांत दहिया, 63087एफ, एएससी  
 ज्ञानाथन वरुण बैजिमिन, 63088के, इन्फैन्ट्री  
 एस आनंद, 63089एम, इन्फैन्ट्री  
 तरुण भसीन, 63090एफ, इन्फैन्ट्री  
 विक्रम प्रताप सिंह, 63091के, इन्फैन्ट्री  
 मोहित सिंह पठानिया, 63092एम, एसी  
 रजत मिश्रा, 63093पी, ईएमई  
 सुमित कोहली, 63094एक्स, एओसी  
 रविकुमार विजयकुमार विश्वनाथ, 63095ए, एओसी  
 विकास शुक्ला, 63096एच, आर्टी  
 सुरेन्द्र कुमार, 63097एल, एसी  
 हेमन्त कुमार शर्मा, 63098एन, आर्टी  
 अभिशेक जकारिया, 63099डब्ल्यू, इन्ट  
 पियुष भट्ट, 63100ए, इन्फैन्ट्री  
 मोहवर सिंह ग्रेवाल, 63101एच, इन्फैन्ट्री  
 अमित कुमार त्यागी, 63102एल, इन्फैन्ट्री  
 सुहैल सिंह सलारिया, 63103एन, इन्फैन्ट्री  
 बिमलेश कुमार, 63104डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 सूरज भाटिया, 63105वाई, एएससी  
 के प्रताप सिंह, 63106एफ, एसी  
 चरण सिंह शेखावत, 63107के, इन्फैन्ट्री  
 अमित कुमार सिंह, 63108एम, इन्फैन्ट्री

वी प्रेम कुमार, 63109पी, आर्टी  
 अनिदया चटर्जी, 63110के, इन्फैन्ट्री  
 रायन चक्रवर्ती, 63111एम, इन्फैन्ट्री  
 विवेक चक्रवर्ती, 63112पी, मेक.  
 सुमित सिंह, 63113एक्स, इन्फैन्ट्री  
 साकेत साहनी, 63114ए, इन्फैन्ट्री  
 रविन्द्र सिंह, 63115एच, आर्टी  
 सुरेश एन, 63116एल, इंजीनियर  
 अभिषेक भारद्वाज, 63117एन, आर्टी  
 आशुतोष शर्मा, 63118डब्ल्यू, एसी  
 राकेश शर्मा, 63119वाई, इन्फैन्ट्री  
 राजशेखर शर्मा, 63120एन, एएससी  
 पंकज कुमार उपाध्याय, 63121डब्ल्यू, एएससी  
 आनंद मारीया चारलीश, 63122वाई, इन्फैन्ट्री  
 वरुण सरीन, 63123एफ, एडी  
 ध्रुव बोरा, 63124के, इन्फैन्ट्री  
 रीतेश त्रिपाठी, 63126पी, इन्फैन्ट्री  
 अर्जुन मोहिन्ता, 63127एक्स, इन्ट  
 मानवेन्द्र सिंह, 63128ए, इन्फैन्ट्री  
 पियुष कुमार शाह, 63129एच, आर्टी  
 कृष्ण कपूर, 63130एक्स, इन्फैन्ट्री  
 कुलविन्द्र सिंह, 63131ए, एसी  
 अनूप कुमार श्रीवास्तव, 63132एच, इन्फैन्ट्री  
 अनिल सिंह, 63133एल, आर्टी  
 अभिशेक बमोला, 63134एन, इन्फैन्ट्री  
 विष्णु त्रिपाठी, 63136वाई, इन्फैन्ट्री  
 शिषपाल सिंह, 63137एफ, इन्फैन्ट्री  
 अशोक कुमार सिंह, 63138के, इन्फैन्ट्री  
 पुनित शर्मा, 63139एम, आर्टी  
 अभिशेक शर्मा, 63140एफ, इन्फैन्ट्री  
 प्रताप कुमार दास, 63141के, एडी  
 जशबीर सिंह गुमान, 63142एम, ईएमई  
 विष्णुकान्त अवस्ति, 63143पी, एओसी  
 शांतनु केनी, 63144एक्स, इन्फैन्ट्री

प्रवीर के रे, 63145ए, एओसी  
 चेतन चोपड़ा, 63146एच, इन्फैन्ट्री  
 तरूण कल्याण, 63147एल, एएससी  
 कुशवीर नंदा, 63148एन, इन्फैन्ट्री  
 वरूण भसीन, 63149डब्ल्यू, मेक.  
 हरदीप सिंह ओबराय, 63150एल, आर्टी  
 सौभिक भट्टाचार्य, 63151एन, सिग्नल  
 एन एम मनोज कुमार, 63152डब्ल्यू, एओसी  
 बिनू राज, 63153वाई, इन्फैन्ट्री  
 सी प्रसन्नन, 63154एफ, आर्टी  
 गगनदीप सिंह कोहली, 63155के, आर्टी  
 चन्द्रमणि सिंह, 63156एम, इन्फैन्ट्री  
 सुधाकर द्विवेदी, 63157पी, इन्फैन्ट्री  
 श्रीनिवास पार्थसारथी, 63158एक्स, आर्टी  
 श्रीजित पी मेनन, 63159ए, इन्फैन्ट्री  
 सुमेष, 63160पी, मेक.  
 कपिल सैनी, 63161एक्स, एएससी  
 सौरभ मेहरोत्रा, 63162ए, इन्फैन्ट्री  
 भरत सिंह पंवार, 63163एच, इन्फैन्ट्री,  
 जसबिंदर सिंह लबना, 63164एल, इन्फैन्ट्री  
 महेन्द्र कुमार तिवारी, 63165एन, इन्फैन्ट्री  
 अमित ठाकुर, 63166डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 अंकुर मोहन, 63167वाई, इन्फैन्ट्री  
 शक्ति सिंह, 63168एफ, इन्फैन्ट्री  
 जयदीप सरकार, 63169के, आर्टी  
 विवेक पंचोली, 63170वाई, आर्टी  
 अशिष अरूण देशपांडे, 63171एफ, इन्फैन्ट्री  
 सुनील कुमार, 63172के, एओसी  
 अनिल सोनाजीराव कदम, 63173एम, इन्फैन्ट्री  
 प्रतिक गुप्ता, 63174पी, आर्टी  
 प्रकाश कुमार सिंह, 63175एक्स, आर्टी  
 अखिलेश कुमार, 63176ए, एओसी  
 प्रशांत सिंह खाटी, 63177एच, इन्फैन्ट्री  
 प्रितिश, 63178एल, इन्फैन्ट्री

प्रमोद कुमार, 63179एन, इंटर  
 देवेश शाही, 63180एच, एएससी  
 चन्द्र प्रकाश शर्मा, 63181एल, एडी  
 प्रशांत जसरोतिया, 63182एन, एसी  
 अक्षय जैन, 63183डब्ल्यू, आर्टी  
 कपिल त्यागी, 63184वाई, एडी  
 ए संतोष, 63185एफ, मेक.  
 सुयोग देव, 63186के, एडी  
 गोखजय सिंह, 63187एम, इन्फैन्ट्री  
 गिरीराज धरन, 63188पी, मेक.  
 आशुतोष झा, 63189एक्स, आर्टी  
 संजीव कुमार राणा, 63190एम, एओसी  
 सोना जार्ज, 63191पी, आर्टी  
 पंकज ठाकुर, 63192एक्स, एसी  
 रंगानाथ पाटिल, 63193ए, आर्टी  
 सुश्मित बैनर्जी, 63194एच, एसी  
 देवबासु माधव, 63195एल, इन्फैन्ट्री  
 पराग बिष्ट, 63196एन, इन्फैन्ट्री  
 विजेन्द्र सिंह, 63197डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 गौतम आनन्द, 63198वाई, इन्फैन्ट्री  
 राजेश चन्द्र खजुरिया, 63199एफ, एएससी  
 अमन कुमार सिंह, 63200एल, इन्फैन्ट्री  
 युनेश चौधरी, 63201एन, इन्फैन्ट्री  
 दिनेश सिंह, 63202डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 विशाल शर्मा, 63203वाई, इन्फैन्ट्री  
 सर्वप्रीत सिंह कक्कड, 63205के, इन्फैन्ट्री  
 अरूणभ सिंह, 63206एम, आर्टी  
 जोशी हेंमत मोहनलाल, 63207पी, इन्फैन्ट्री  
 विपुल यादव, 63208एक्स, इन्फैन्ट्री  
 मनीष शर्मा, 63209ए, एएससी  
 मितुष यादव, 63210पी, इन्फैन्ट्री  
 चिरोम इबुंगो, 63211एक्स, इन्फैन्ट्री  
 गिरिश शेखर, 63212ए, इन्फैन्ट्री  
 जावेद खान, 63213एच, एओसी

सी एन रमेश, 63214एल, एससी  
 अनूप ग्रेवाल, 63215एन, आर्टी  
 प्रियंक शर्मा, 63216डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 चेतन कुमार, 63217वाई, एडी  
 अरूण प्रकाश मौर्या, 63218एफ, इन्फैन्ट्री  
 विजय कुमार लांबा, 63219के, इन्फैन्ट्री  
 अय्यर अरूण राजन, 63220वाई, मेक.  
 शिवकुमार एम, 63221एफ, इन्फैन्ट्री  
 मुमित कुमार चंदल, 63222के, एओसी  
 जयदीप सिंह, 63223एम, एसी  
 नंदकिशोर प्रकाश, 63224पी, इन्फैन्ट्री  
 टी एम प्रवीण कुमार, 63225एक्स, आर्टी  
 कुमार अभिषेक, 63226ए, इन्फैन्ट्री  
 नितिन अग्निहोत्री, 63227एच, इंटर  
 अभिषेक जुयाल, 63228एल, इन्फैन्ट्री  
 अक्षय दास, 63229एन, इन्फैन्ट्री  
 समीर शर्मा, 63230एच, एसी  
 राजेश कुमार, 63231एल, इंजीनियर  
 मोहित गौड, 63232एन, सिग्नल  
 देवाशिष दासगुप्ता, 63233डब्ल्यू, आर्टी

विजय सहगल  
 ले. कर्नल  
 सहायक सेना सचिव (एमएस-8बी)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 236, दिनांक 20 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

डा. इन्दर मोहन छबरा को अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के रूप में रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के आर. सी. आई., हैदराबाद में दिनांक 27-11-2001 से वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- पर एक वर्ष की परखावधि पर।

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 पर :-

नाम	स्थापना	दिनांक
(श्री/श्रीमती/कु./डा.)		
विवेक नारायण सक्सेना	ए आर डी ई, पुणे	08 अगस्त 2002
प्रवीण कुमार बी	-वही-	08 अगस्त 2002
प्रद्युत कुमार राय	आई टी आर, बालासोर	08 अगस्त 2002
मिलन कुमार पाल	-वही-	11 जुलाई 2001
शाश्वत मैत्रा	-वही-	08 अगस्त 2002
सामला जयप्रदा	एस एस सी, भोपाल	10 अप्रैल 2001
सौरसेनी बसु	हेमरल, पुणे	11 जुलाई 2001
सुनील जैन	-वही-	16 अगस्त 2002
डोम्बे गणेश शंकर	-वही-	06 मई 2003
बेदत्रयी बसु	-वही-	08 अगस्त 2002
मोनल शेष	-वही-	13 अगस्त 2002
अभिषेक माथुर	डील, देहरादून	08 अगस्त 2002
जाहीद अली	-वही-	08 अगस्त 2002
चित्रलेखा घोशाल	आर डी ई(ई), पुणे	08 अगस्त 2002
महावीर प्रसाद	आई ए टी, पुणे	03 दिसम्बर 2001
गजेश जोशी	-वही-	08 अगस्त 2002
हेमेन्द्र सिंह गुसाई	सासे, चण्डीगढ़	18 अक्टूबर 2001
संजय कुमार दीवाली	-वही-	22 अक्टूबर 2001
अग्रज उपाध्याय	-वही-	17 अक्टूबर 2001
चन्द्र शेखर पाण्डे	सासे, मनाली	23 अप्रैल 2002
जूमी हजारीका	आई आर डी ई देहरादून	20 जुलाई 2001
भवानी सिंह सोलंकी	लेसटेक दिल्ली	11 जुलाई 2001
वी एन पानचाली	एन पी ओ एल कोचीन	30 अप्रैल 2002
हिमांशु सिंह	आई आर डी ई देहरादून	20 अगस्त 2002
प्रदीप कुमार सिंह	एस सी ई, इलाहाबाद	24 मई 2002
अजय प्रकाश त्रिपाठी	-वही-	08 फरवरी 2002
बोबिन मण्डल	डी एल, जोधपुर	21 मार्च 2000
प्रदीप साहा	आई आर डी, बालासोर	15 फरवरी 2001
राज कुमार	इनमास, दिल्ली	12 नवम्बर 2001
अनुपम कौल	इस्सा, दिल्ली	08 अगस्त 2002
जय शंकर कुमार	-वही-	28 अगस्त 2002
अनन्ददीप मण्डल	वेस्सी, नई दिल्ली	08 अगस्त 2002
दीपक	टी बी आर एल चण्डीगढ़	20 अगस्त 2002
यमित भूपात्री मैहता	ईसा दिल्ली	08 अगस्त 2002

डी आर डी एस नियम 1979 के उप नियम 8(क) के निबन्धनों के अनुसार हुई सीमित विभागीय परीक्षा 2002 में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर वैज्ञानिक "बी" (ग्रुप "ए") के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 पर :-

नाम स्थापना और दिनांक

श्री संजीव कुमार डी एम एस आर डी ई कानपुर 31 दिसम्बर 2002

जे के खडवाल  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

-----  
नौसेना शाखा

सं. 237, दिनांक 20 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ओ एफ/1553/एन एच क्यू/393/यू एस (पी)/डी (एन-II) दिनांक 30 सितम्बर 2002 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (संभरण कैंडर) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले. के रैंक में परखाधीन  
सीधी भर्ती

क्र. सं.	नाम	निजी संख्या	कमीशन की किस्म	कमीशन की तिथि
1.	भटनागर संदीप	(05184एफ),	अल्पकालीन	02 जुलाई 2001

अनिल कुमार  
कमांडर  
जेडीएमपीआर आर एण्ड आर

-----  
वायु शाखा

सं. 238, दिनांक 19 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करने की तारीख अर्थात् 18 दिसम्बर 99 से उद्घाटन वेतन पाने के अधिकारी हैं।

भारतीय वायु सेना

उद्घाटन फायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैंडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर उज्जवल गोबिल (25841), राहुल शुक्ला (25845), जियजी पोथन (25851) दिनांक 18 दिसम्बर 99 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित कैंडेटों की उपबन्ध भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्रांक 4(4)/90/डी (एयर-III) दिनांक 18 जुलाई 91 के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा फ्लाईंग अफसर रैंक में अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं:

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा (वायुयान यातायात नियंत्रक/लड़ाकू नियंत्रक)

फ्लाईंग अफसर के विनोद (27068), शाह अम्बर (27069),

हरजीत सिंह (27070), बिजेन्द्र सिंह (27071), ए पी राजू (27072), सुभाष चन्द्र (27073), ए के प्रियदर्शी (27074), संजीव वजीर (27075), मिहिर कुमार (27076), विकास (27077), अमनदीप सिंह (27078) आर सेनतिलनाथन (27079), शिवराज सिंह (27080), जंगम ई एन प्रनिल (27081), संजीव सिंह (27082), दीपक कुमार सिंह (27083), एन एम शबीर अली (27084), रवि जैन (27085) पी के सिन्हा (27086), पी धीरा रेड्डी (27087), वासु कपिल (27088), सुनील कुमार चहर (27089), सुरिन्द्र सिंह (27090), पुष्पेन्द्र सिंह (27091), के श्रीनिवासन (27092), श्रीश हरि कर्माकर (27093), भगवत पी नौटियाल (27094), विजय भौन्दियाल (27095), के ए नागराजन (27096), अमित उप्पल (27097), एम वालसुब्रमणियम (27098), टी वी गोपाल कृष्णा (27099), नरेन्द्र पी उनियाल (27100), सुशांत भट्ट (27101), एस एस चौधरी (27102), पी कामत प्रशांत (27103), वट्टरी रोहित (27104), मनीष दत्ता (27105), गौरव अस्थाना (27106), चेतन कुमार जैन (27107), वी राजा वैकटेश कुमार (27108)--दिनांक 28 जून 2002 से।

एस श्रीवास्तव  
स्क्वाड्रन लीडर  
डी डी पी ओ-3 (डी)

-----  
(वित्त प्रभाग)

सं. 239, दिनांक 15 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के श्री राजबीर सिंह, श्री एस. पी. कपूर एवं श्रीमती सुखपाल वालिया को रक्षा मंत्रालय में दिनांक 01-01-2004 से 31-03-2004 तक नियमित अधिकारी मिलने या अगले आदेश होने, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. सी. लूथर  
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सं. 240, दिनांक 15 अप्रैल 2004--सी ई और एम ई एस (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग : 78) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्री बी. बी. ठाकुर का कार्यकाल/संभूर की गई छुट्टी समाप्त होने पर उनकी सेवाएं 11 मार्च 2004 (अपराह्न) से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण-कार्य महाविशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में वैयक्तिक/तदर्थ आधार पर कार्यरत उप सचिव श्री कुन्दन लाल शर्मा का पार्श्विक (lateral) स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 01 मार्च, 2004 (पूर्वाह्न) से मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंपी जाती हैं।

बी. सरस्वती  
अवर सचिव

## वायु शाखा

सं. 241, दिनांक 19 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों की उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 58/98 के उपबन्धों के तहत पुष्टि करते हैं:

## भारतीय वायु सेना

## उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाईंग कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर उज्ज्वल गोविल (25841), राहुल शुक्ला (25845), जियाजो पोथन (25851), दिनांक 18 दिसम्बर 99 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं।

## भारतीय वायु सेना

## प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर पूजा ठाकुर (26611), नवरतन कौर (26612), प्रतिभा शर्मा (26613), पारूल मिश्रा (26614), अर्चना सिंह (26615), मीनाक्षी शर्मा (26616), शालिनी चौधरी (26617), सोनिया रावत (26618), दिनांक 16 जून 2001 से।

## लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर डेजी मेहता (26619), अर्पिता मिश्रा (26620), नमिता आनन्द (26621), प्रेमिला कुमारी ढाका (26622), शालू गौतम (26623), प्रीती बहुगुणा (26624), दिनांक 16 जून 2001 से।

## शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर अन्जलि गुप्ता (26625), पूनम नेगी (26626) दिनांक 16 जून 2001 से।

## मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर श्रेया पंडित (26211), विनीला वर्मा (26212), दिनांक 16 जून 2001 से।

एस श्रीवास्तव

स्ववाकून लीडर

डी डी पी ओ-3 (डी)

-----

## सेना शाखा

सं. 242, दिनांक 15 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

## निपामित सेना

## इन्फैन्ट्री

## जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भवण कुमार (सं. 3180762 डब्ल्यू अब जेसी-489431एम), 30 दिसम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 3176501एल अब जेसी-489432पी),

01 अगस्त 2003

हवलदार सरदार सिंह (सं. 3175318 डब्ल्यू अब जेसी-489433एक्स), 07 जनवरी 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार रूम सिंह (सं. 3186387एम अब जेसी-489434ए), 20 सितम्बर 2003

हवलदार भाकर राम (सं. 3175056एल अब जेसी-489435एच), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं. 3181485एच अब जेसी-489436एल), 18 दिसम्बर 2003

हवलदार महाबीर प्रसाद गोदारा (सं. 3174690एफ अब जेसी-489437एन), 20 दिसम्बर 2003

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3173618वाई अब जेसी-489438डब्ल्यू), 14 जनवरी 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुखा राम (सं. 3176284ए अब जेसी-489439वाई), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) जागे राम (सं. 3177537 डब्ल्यू अब जेसी-489440एन), 01 फरवरी 2004

## 4 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमर बहादुर थापा (सं. 5345220के अब जेसी-612515के), 13 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार नील बहादुर थापा (सं. 5345321एक्स अब जेसी-612516एम), 13 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार नन्दा बहादुर थापा (सं. 5345426एफ अब जेसी-612517पी), 13 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार दीप बहादुर थापा (सं. 5344439एम अब जेसी-612518एक्स), 01 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार मीन नारायण थापा नगर (सं. 5345386एल अब जेसी-612519ए), 13 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2003)



हवलदार हीम बहादुर थापा (सं. 5344898एल अब जेसी-612520पी), 27 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2003)

हवलदार इमान सिंह राना (सं. 5344946ए अब जेसी-612521एक्स), 22 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार दिनेश कुमार गुरुंग (सं. 5345249एम अब जेसी-612522ए), 25 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 16 दिसम्बर 2003)

हवलदार गुमान सिंह अले (सं. 5344940वाई अब जेसी-612523एच), 17 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 28 दिसम्बर 2003)

हवलदार बीर बहादुर गुरुंग (सं. 5345406एन अब जेसी-612524एल), 28 दिसम्बर 2003

हवलदार संजय कुमार (सं. 5345805एक्स अब जेसी-612525एन), 28 दिसम्बर 2003

हवलदार लील कुमार राना (सं. 5345616एन अब जेसी-612526डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

हवलदार संजय गुरुंग (सं. 5345694एल अब जेसी-612527वाई), 28 दिसम्बर 2003

हवलदार मेम बहादुर गुरुंग (सं. 5345255ए अब जेसी-612528एफ), 01 जनवरी 2004

हवलदार चतुरा बहादुर गुरुंग (सं. 5345288एल अब जेसी-612529के), 20 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

हवलदार आश बहादुर थापा (सं. 5345478एक्स अब जेसी-612530वाई), 01 जनवरी 2004

हवलदार रवीन्द्र गुरुंग (सं. 5345475के अब जेसी-612531एफ), 19 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

#### 1 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लिपिक सुरेन्द्र सिंह नेगी (सं. 5043000ए अब जेसी-602524एक्स), 02 अक्टूबर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2003)

कम्पनी हवलदार मेजर हरी बहादुर थापा (सं. 5043153एच अब जेसी-602525ए), 05 सितम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 11 अगस्त 2003)

2-74 GI/2004

हवलदार तील बहादुर गुरुंग (सं. 5042708डब्ल्यू अब जेसी-602526एच), 24 अक्टूबर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2003)

हवलदार राम प्रसाद थापा, सेना मेडल (सं. 5042442पी अब जेसी-602527एल), 22 अक्टूबर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार राम बहादुर गुरुंग (सं. 5042887एफ अब जेसी-602528एन), 01 अक्टूबर 2003

कम्पनी हवलदार मेजर देवी राम थापा (सं. 5042558एल अब जेसी-602529डब्ल्यू), 26 नवम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 11 अगस्त 2003)

कम्पनी हवलदार मेजर पुरना बहादुर गुरुंग (सं. 5042530एल अब जेसी-602530एल), 07 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2003)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बल बहादुर थापा (सं. 5042531एन अब जेसी-602531एन), 26 नवम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार नेत्रा बहादुर राना (सं. 5043012एक्स अब जेसी-602532डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003

कम्पनी हवलदार मेजर राम बहादुर थापा (सं. 5043516एल अब जेसी-602533वाई), 01 सितम्बर 2003

हवलदार खेम बहादुर थापा (सं. 5041946डब्ल्यू अब जेसी-602534एफ), 08 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार लील बहादुर राना (सं. 5042680एफ अब जेसी-602535के), 26 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

हवलदार भरत बहादुर थापा (सं. 5042542ए अब जेसी-602536एम), 01 जनवरी 2004

हवलदार राम बहादुर गुरुंग (सं. 5042673एल अब जेसी-602537पी), 01 जनवरी 2004

हवलदार दिल बहादुर गुरुंग (सं. 5042899डब्ल्यू अब जेसी-602538एक्स), 01 फरवरी 2004

(ज्येष्ठता वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

#### मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार के नटराजन (सं. 2582803एल अब जेसी-439323एम), 01 जुलाई 2003

हवलदार जादे गौड़ा (सं. 2588284के अब जेसी-439319के), 01 अगस्त 2003

हवलदार कोरे महादेव नारायण (सं. 2587393के अब जेसी-439320वाई), 01 अगस्त 2003

हवलदार प्रसन्नन पिल्लै बी (सं. 2586776के अब जेसी-439321एफ), 13 अगस्त 2003

हवलदार जोस पी जे (सं. 2586623ए अब जेसी-439328एल), 01 सितम्बर 2003

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस मारिया एन्थनी (सं. 2582084एक्स अब जेसी-439327एच), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार सदाशिवन पिल्लै के एस (सं. 258441के अब जेसी-439329एन), 01 जून 2003

हवलदार जयरामा एम पी (सं. 2588866के अब जेसी-439324पी), 22 अगस्त 2003

हवलदार ए चन्द्राशेखरन (सं. 2591210ए अब जेसी-439330एच), 09 सितम्बर 2003

हवलदार मुतुकृष्णन एम (सं. 2584002एच अब जेसी-439326ए), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार प्रकाश अब्राहम (सं. 2585969एक्स अब जेसी-439325एक्स), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार बाबू एम एम (सं. 2584906एच अब जेसी-439331एल), 01 नवम्बर 2003

#### जम्मू और काश्मीर राईफल्स

##### नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 13743717एफ अब जेसी-579618ए), 08 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अरुण कुमार बघान (सं. 13745005एक्स अब जेसी-579619एच), 23 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार राज पाल चौधरी (सं. 13747883एम अब जेसी-579620एक्स), 11 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार निर्मल सिंह जमवाल (सं. 13747891एल अब जेसी-579621ए), 20 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम सिंह (सं. 1374813ए अब जेसी-579622एच), 23 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 13749144वाई अब जेसी-579623एल), 22 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13747926डब्ल्यू अब जेसी-579624एन), 08 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार भाग सिंह (सं. 13749417डब्ल्यू अब जेसी-579625डब्ल्यू), 20 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम चन्द भट (सं. 13743777डब्ल्यू अब जेसी-579626वाई), 17 अक्टूबर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार रघबीर चन्द (सं. 13742044एल अब जेसी-579627एफ), 15 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 13744116एच अब जेसी-579628फे), 27 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13744118एन अब जेसी-579629एम), 18 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील कुमार (सं. 13744966एम अब जेसी-579632एम), 01 नवम्बर 2003+

हवलदार अवतार सिंह (सं. 13743966ए अब जेसी-579633पी), 01 नवम्बर 2003+

##### नायब सूबेदार जी. डी. क्लर्क के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द राणा (सं. 13748644के अब जेसी-579630एफ), 03 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 13749026एल अब जेसी-579631के),  
01 नवम्बर 2003+

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार बखशीश सिंह (सं. 13746698एम अब  
जेसी-579634एक्स), 20 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार सोम बहादुर राणा (सं. 13750422एन अब  
जेसी-579635ए), 06 दिसम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार चौधरी राम (सं. 13745593डब्ल्यू अब  
जेसी-579636एच), 01 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 13748117वाई अब  
जेसी-579637एल), 01 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 13744055डब्ल्यू अब  
जेसी-579638एन), 18 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार काश्मीर सिंह गुलेरिया (सं. 13743507एफ अब  
जेसी-579639डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 अक्तूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार भोला राम (सं. 13742926एम अब जेसी-579640एल),  
01 नवम्बर 2003+

हवलदार शम्भू राम शर्मा (सं. 13742670पी अब  
जेसी-579641एन), 09 दिसम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 03 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 13745594वाई अब  
जेसी-579643वाई), 05 दिसम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार दबेन्द्र कुमार (सं. 13744132ए अब जेसी-579644एफ),  
01 दिसम्बर 2003+

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 13744203डब्ल्यू अब  
जेसी-579645के), 03 दिसम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार धर्म पाल (सं. 13744184डब्ल्यू अब जेसी-579646एम),  
01 दिसम्बर 2003+

हवलदार राम सिंह (सं. 13743330वाई अब जेसी-579647पी),  
01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार जी. डी. क्लर्क के रैंक में

हवलदार धन्ना सिंह (सं. 13747331वाई अब जेसी-579642डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2003

असम रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मनिराम डेका (सं. 4353445एल अब  
जेसी-548819एक्स), 03 मई 2003/01 दिसम्बर 2002

हवलदार अश्विनी कुमार नाथ (सं. 4353247ए अब  
जेसी-548896एम), 01 अक्तूबर 2003

हवलदार थेंगोनीन बाइते (सं. 4352514के अब जेसी-548903एफ),  
22 नवम्बर 2003/14 अगस्त 2003

हवलदार एल पी तुआंग (सं. 4358269एच अब जेसी-548904ए),  
01 सितम्बर 2003

हवलदार पुखरामबम बिजय सिंह (सं. 4355468एल अब  
जेसी-548905एम), 21 नवम्बर 2003/20 अप्रैल 2003

हवलदार नीला चंद सिंह (सं. 4355794एन अब  
जेसी-548906एल), 05 दिसम्बर 2003/14 अगस्त 2003

हवलदार भद्र चेतिया (सं. 4353430एच अब जेसी-548907एन),  
05 दिसम्बर 2003/01 अक्तूबर 2003

हवलदार जीवन भगवती (सं. 4353495डब्ल्यू अब  
जेसी-548909वाई), 05 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003

हवलदार बरिन्द्र कुमार सिंहा (सं. 4354056एक्स अब  
जेसी-548910एन), 01 जनवरी 2004

हवलदार अश्विनी कुमार ब्रह्मा (सं. 4354275वाई अब  
जेसी-548911डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

हवलदार नरेन चंद गौगोई (सं. 4352858एक्स अब  
जेसी-548912वाई), 02 जनवरी 2004/01 अक्तूबर 2003

हवलदार राघव चंद्र नाथ (सं. 4352860ए अब जेसी-548913एफ),  
01 दिसम्बर 2003/01 अक्तूबर 2003

हवलदार नमल चंद्र बोरा (सं. 4352885एम अब जेसी-548914के), 01 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003

हवलदार झामचिनलाम सिमते (सं. 4351571वाई अब जेसी-548915एम), 01 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003

हवलदार कमलेश्वर बोरबोराह (सं. 4353368एफ अब जेसी-548917एक्स), 01 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003

हवलदार आनंदा चंद्र दास (सं. 4353523एक्स अब जेसी-548918ए), 15 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार बेल बहादुर थापा (सं. 4426443डब्ल्यू अब जेसी 548919एच), 01 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार अतुल चंद्र दास (सं. 4351611पी अब जेसी-548924एन), 13 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003

हवलदार हावतिनथंग (सं. 4351701डब्ल्यू अब जेसी-548925डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2003/15 अक्टूबर 2003

हवलदार सुकांता सिंहा (सं. 4352859एल अब जेसी-548908डब्ल्यू), 04 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार लाल बिहारी सिंहा (सं. 4353028एक्स अब जेसी-548926वाई), 02 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार लिपिक रोहतास (सं. 4357227के अब जेसी-548933पी), 01 फरवरी 2004

हवलदार लिपिक कृष्ण कुमार सिंह (सं. 4357262एम अब जेसी-548934एक्स), 01 फरवरी 2004

हवलदार लिपिक अखिल बरूआ (सं. 4355541वाई अब जेसी-548935ए), 01 फरवरी 2004

डोगरा रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगतार सिंह (सं. 3980399एम अब जेसी-519786पी), 26 नवम्बर 2003

हवलदार हुलसी दास (सं. 3980994डब्ल्यू अब जेसी-519787एक्स), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार विजय सिंह पट्टीयाल (सं. 3980663ए अब जेसी-519788ए), 31 दिसम्बर 2003+

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2003 से)

हवलदार शितल सिंह (सं. 3980702एच अब जेसी-519789एच), 26 दिसम्बर 2003

हवलदार राम लाल (सं. 398065ए अब जेसी-519790एक्स), 30 दिसम्बर 2003

हवलदार राजमल ठाकुर (सं. 3980430एन अब जेसी-519791ए), 14 जनवरी 2004

हवलदार प्रमोद सिंह (सं. 3980442एच अब जेसी-519792एच), 23 जनवरी 2004

हवलदार रमेश चन्द ठाकुर (सं. 3986963एम अब जेसी-519793एल), 01 फरवरी 2004

हवलदार राम सिंह (सं. 3980456एच अब जेसी-519794एल), 01 फरवरी 2004

हवलदार तिलक राज (सं. 3981804एल अब जेसी-519795डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक किशोरी लाल (सं. 3983498ए अब जेसी-519796वाई), 01 अक्टूबर 2004

11 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अर्जुन कुमार प्रधान (सं. 9416162डब्ल्यू अब जेसी-634530वाई), 22 जनवरी 2004@

@(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2003)

हवलदार कपिल राई (सं. 9417741पी अब जेसी-634531एफ), 16 जनवरी 2004#

#(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003)

हवलदार पर्वत चंद्रा राई (सं. 9417760ए अब जेसी-634532के), 03 फरवरी 2004\$

\$(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

हवलदार गम बहादुर राई (सं. 9416710एच अब जेसी-634533एम), 15 जनवरी 2004%

%(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

हवलदार प्रेम कुमार राई (सं. 9415814एक्स अब जेसी-634534पी), 15 फरवरी 2004&

&(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

दि राजपूत रेजीमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक अग्राहम ओम (सं. 2980659डब्ल्यू अब जेसी-479333वाई), 01 जनवरी 2004

## नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 2980925के अब जेसी-479334एफ),  
05 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।)

हवलदार सपू सिंह (सं. 2988018वाई अब जेसी-479335के),  
08 अक्टूबर 2003

हवलदार हेरम्ब प्रसाद मिश्र (सं. 2979402वाई अब जेसी-479336एम), 24 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।)

हवलदार मुरारी लाल (सं. 2985598डब्ल्यू अब जेसी-479337पी),  
14 नवम्बर 2003

(ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।)

हवलदार जय पाल (सं. 2981264एफ अब जेसी-479338एक्स),  
04 नवम्बर 2003

हवलदार समसुद्दीन अली खान (सं. 2979974ए अब जेसी-479339ए), 20 नवम्बर 2003

हवलदार ब्रह्म पाल सिंह (सं. 2977893एफ अब जेसी-479340पी), 07 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।)

हवलदार रोहताश (सं. 2976699ए अब जेसी-479341एक्स), 13 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।)

हवलदार कालीपदा बेपारी (सं. 2982011वाई अब जेसी-479342ए), 01 जनवरी 2004

हवलदार प्यार सिंह यांगी (सं. 2981604वाई अब जेसी-479343एच), 01 जनवरी 2004

हवलदार नारीबान (सं. 2982264एन अब जेसी-479344एल),  
01 जनवरी 2004

हवलदार इन्द्र सिंह (सं. 2978403पी अब जेसी-479345एन),  
17 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।)

हवलदार रबी लाल सिंहा (सं. 2981671के अब जेसी-479346डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

हवलदार सुन्दर लाल मिश्र (सं. 2978887वाई अब जेसी-479347वाई), 01 जनवरी 2004

हवलदार जगरूप सिंह परीहार (सं. 2984459एक्स अब जेसी-479348एफ), 05 जनवरी 2004

हवलदार ब्रजेन्द्र चन्द्र राय (सं. 2987353डब्ल्यू अब जेसी-479349के), 07 जनवरी 2004

हवलदार मनाहर सिंह (सं. 2977564एल अब जेसी-479350वाई),  
18 जनवरी 2004

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 2977702एफ अब जेसी-479351एफ),  
28 जनवरी 2004

## नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिये

हवलदार बोधराज (सं. 9084625एल अब जेसी-593134एल),  
09 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 18 सितम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार पवन कुमार (सं. 9085129डब्ल्यू अब जेसी-593135एन),  
19 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राज सिंह (सं. 9084220डब्ल्यू अब जेसी-593136डब्ल्यू),  
14 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुरेश चन्द्र ठाकुर (सं. 9084709वाई अब जेसी-593137वाई), 12 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जागराम (सं. 9086497एक्स अब जेसी-593138एफ), ●  
23 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुरा राम (सं. 9086135डब्ल्यू अब जेसी-593139के),  
07 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

## नायब सूबेदार लिपिक पदोन्नति के लिये

हवलदार लिपिक राकेश कुमार भास्करन (सं. 9088026एक्स अब जेसी-593131एक्स), 25 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लिपिक राम भरोसे लाल (सं. 9088118पी अब जेसी-593132ए), 14 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लिपिक शाम सिंह चरक (सं. 9069503पी अब जेसी-593133एच), 30 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार गुर्वेल सिंह (सं. 4460990एम अब जेसी-509064पी), 01 अक्टूबर 2003×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2002 से दी जायेगी)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 4462719एफ अब जेसी-509065एक्स), 01 जनवरी 2003

हवलदार सविन्द्र सिंह (सं. 4463164एक्स अब जेसी-509066ए), 08 फरवरी 2003

हवलदार विक्कर सिंह (सं. 4466871एम अब जेसी-509067एच), 01 अप्रैल 2003

हवलदार बलजिन्द्र सिंह (सं. 4467868वाई अब जेसी-509068एल), 01 जून 2003

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 4467245पी अब जेसी-509069एम), 19 जुलाई 2003

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 4466745ए अब जेसी-509070एच), 22 अगस्त 2003

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 4461831एफ अब जेसी-509071एल), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार गोपाल कृष्ण सिंह (सं. 4465579एल अब जेसी-509072एन), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार शाम सिंह (सं. 4464218ए अब जेसी-509073डब्ल्यू), 11 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार बल्लौर सिंह (सं. 4460884एम अब जेसी-509074वाई), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 4461018वाई अब जेसी-509075एफ), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 4463368के अब जेसी-509076के), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार बलबिन्द्र सिंह (सं. 4462631एक्स अब जेसी-509077एम), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार भोला सिंह (सं. 4467561एन अब जेसी-509078पी), 01 जनवरी 2004

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 4459922एम अब जेसी-509079एक्स), 01 जनवरी 2004

बिहार रेजीमेंट

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार कमलेश सिंह (सं. 4259428एम अब जेसी-559224ए), 19 जनवरी 2004/06 सितम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 06 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार गोपाल सिंह मुंडा (सं. 4261110एन अब जेसी-559225एच), 18 जनवरी 2004/09 सितम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार ललन सिंह (सं. 4261686एल अब जेसी-559226एल), 25 दिसम्बर 2003/15 सितम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बिजय जेरोम टोप्पो (सं. 4262425के अब जेसी-559227एन), 04 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)

हवलदार गुंझीया उरॉव (सं. 4259244एन अब जेसी-559228डब्ल्यू), 29 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार रिमिस बारा (सं. 4262422डब्ल्यू अब जेसी-559229वाई), 14 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश सिंह यादव (सं. 4257188एफ अब जेसी-559230एन), 29 दिसम्बर 2003/15 नवम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार रंगजी सिंह (सं. 4259694एल अब जेसी-559231डब्ल्यू), 06 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार शंभु नाथ सिंह (सं. 4258092एल अब जेसी-559232वाई), 01 जनवरी 2004

हवलदार राधा मोहन सिंह (सं. 4260650ए अब जेसी 559233एफ), 01 जनवरी 2004

हवलदार राम पुकार साह (सं. 4259406एन अब जेसी-559234के), 01 जनवरी 2004

हवलदार जितराय मरांडी (सं. 4264908ए अब जेसी-559235एम), 06 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार कालीधान (सं. 4259532ए अब जेसी-559236पी), 20 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार बोअस नाग (सं. 4259641एम अब जेसी-559237एक्स), 22 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार मतियस टोप्पो (सं. 4261616एम अब जेसी-559238ए), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार रामा शंकर सिंह (सं. 4259793एन अब जेसी-559239एच), 06 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार भगवान घदई (सं. 4262464एच अब जेसी-559202एफ), 01 अक्तूबर 2003/10 जनवरी 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 10 जनवरी 2003 से दी जाती है)

हवलदार राज किशोर सिंह (सं. 4259036वाई अब जेसी 559203के), 01 जनवरी 2004/01 फरवरी 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003 से दी जाती है)

हवलदार मार्टिन नाग (सं. 4258328पी अब जेसी-559204एम), 07 दिसम्बर 2003/01 जून 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2003 से दी जाती है)

हवलदार विद्यार्थी यादव (सं. 4259073एम अब जेसी-559205पी), 20 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार पंकज कुमार मेहता (सं. 4259932एम अब जेसी-559206एक्स), 20 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार जगदेव नाग (सं. 4263201डब्ल्यू अब जेसी-559207ए), 26 नवम्बर 2003/01 जुलाई 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार विकटर टोप्पो (सं. 4264032एम अब जेसी-559208एच), 26 नवम्बर 2003/01 जुलाई 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार डोमनिक कुजूर (सं. 4260341एक्स अब जेसी-559209एल), 20 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार शिवजी सिंह (सं. 4259373एन अब जेसी-559210ए), 28 नवम्बर 2003/01 जुलाई 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार लिविनस मिंज (सं. 4262925एफ अब जेसी-559211एच), 26 नवम्बर 2003/01 जुलाई 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 4261729पी अब जेसी-559212एल), 26 नवम्बर 2003/01 अगस्त 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)

हवलदार राम लाल कुमेटी (सं. 4270518एन अब जेसी-559213एन), 04 दिसम्बर 2003/26 सितम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 26 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार जय नारायण प्रकाश सिंह (सं. 4260075के अब जेसी-559214डब्ल्यू), 30 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार सुरसेन गुरिया (सं. 4261162के अब जेसी-559215वाई), 30 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार भगवान लाल राय (सं. 4261396एन अब जेसी-559216एफ), 07 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 4265900ए अब जेसी-559217के), 12 जनवरी 2004/24 नवम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 24 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कहनु चरण साहू (सं. 4267433एम अब जेसी-559218एम), 11 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बिपिन बिहारी सिंह (सं. 4267866के अब जेसी-559219पी), 01 जनवरी 2004

हवलदार लक्ष्मण प्रसाद (सं. 4259443एफ अब जेसी-559220के), 01 जनवरी 2004

हवलदार चन्द्र शेखर दुबे (सं. 2594280के अब जेसी-559222एम), 01 जनवरी 2004

हवलदार हरि नारायण सिंह (सं. 4260064एक्स अब जेसी-559222पी), 01 जनवरी 2004

हवलदार सिलास बेंगरा (सं. 4261854वाई अब जेसी-559223एक्स), 01 जनवरी 2004

दिवाकर  
अवर सचिव

सं. 243, दिनांक 20 अप्रैल 2004--थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 4/96 द्वारा जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

#### नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कर्नल और समकक्ष पद से ब्रिगेडियर के पद पर

ब्रिगे. के रवीशंकर (डीआर-10281पी), 17-11-03--परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 01-03-03 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

ब्रिगे. महेश चन्द्र (डीआर-10288वाई), 17-11-03--परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 01-06-03 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

ब्रिगे. एच. जी. गार्गे (डीआर-10290डब्ल्यू), 12-11-03--परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 20-06-03 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

ब्रिगे. एस. एम. मोहन (डीआर-10295पी), 12-11-03--परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 01-09-03 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

ब्रिगे. विमल अरोड़ा, वी एस एम (डीआर-10298एच), 13-11-03--परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 28-10-03 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

परमजीत सिंह  
मेजर जनरल, अपर निदेशक

सं. 244, दिनांक 21 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

#### स्थायी कमीशन

मेजर जनरल से लेफ्टि. जनरल के पद पर

रामजी राय (एमआर-2064के), 30-09-2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-2003 से दी जाती है।

एयर वाईस मार्शल से एयर मार्शल के पद पर

पी के सरकार (एमआर-2551के) (वा. से. 26480के), 30-09-03 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-03 से दी जाती है।

ग्रुप कैप्टन से एयर कोमोडोर के पद पर

एच सुब्रामान्या (एमआर-2960एक्स), (वा. से. 12910), 01-08-03 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-03 से दी जाती है।

एम श्रीवास्तवा  
ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.चि.से. (कार्मिक)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 245, दिनांक 20 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 पर:--

डा. राधे श्याम, ए डी आर डी ई आगरा, 01 जुलाई 2003

श्री आर पी भट्ट, डी ए आर एल पितौरागढ़, 01 जुलाई 2003

श्री एस चन्द्र मोहन, आई टी आर बालासोर, 01 जुलाई 2003

श्री पी एच लंकेनवर, डी एल जोधपुर, 01 जुलाई 2003

श्री प्रसन्न कुमार राय, सीज दिल्ली, 01 जुलाई 2003

श्री डी वेंकटेश्वरलू, एस बी सी विशाखापट्टनम, 01 जुलाई 2003

श्री टी बी वेंकटेश, एस बी सी विशाखापट्टनम, 01 जुलाई 2003

श्री मैनीप्पति शालू, एस बी सी विशाखापट्टनम, 01 जुलाई 2003



निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी 'बी' की उनके नाम के सामने दर्शाये गये दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी कोडर में तकनीकी अधिकारी 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 पर :-

साराथ मित्र, पी एक्स ई, चाँदिपूर, 01 सितम्बर 2003

एम वै देशमुख, एच ई एम आर एल, बूणे, 03 नवम्बर 2003

निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी 'ए' को दिनांक 01-09-2003 से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी कोडर में, पी एक्स ई, चाँदिपूर में, दो वर्ष की परखावाधि पर तकनीकी अधिकारी 'बी' (ग्रुप 'ए' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 पर :-

श्री/श्रीमती/कुमारी/डा.

एच एन पाणिग्राहि

एमएस मोहंति

एस बी गिरि

एस के जेना

एस के पति

निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक को दिनांक 01-09-2003 से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी कोडर में तकनीकी अधिकारी 'ए' (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 7,450-225-11,500 पर :-

श्री/श्रीमती/कुमारी/डा.

सुशान्ता कुमार सिंह, पी एक्स ई, चाँदिपूर

नारायण चन्द्र डास, पी एक्स ई, चाँदिपूर

कंदारनाथ पांडा, पी एक्स ई, चाँदिपूर

लोरन्स आईद, पी एक्स ई, चाँदिपूर

एस सत्यनारायणा, एल आर डी ई, बैंगलोर

ए एन शिवरामन, एल आर डी ई, बैंगलोर

आर नागेन्द्र, एल आर डी ई, बैंगलोर

नागराजा रावु, एल आर डी ई, बैंगलोर

जे के खडवाल,  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु सेना

सं. 246, दिनांक 19 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ मूल रैंक में करते हैं:

भारतीय वायु सेना

उड़ान नेविगेशन शाखा

फ्लाईंग लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

मनोज कुमार आर एस (22747), निकम एस के आर (22748), एस शर्मा (22750), बेन्नाबी एस (22751), आलूबालिया ए

(22753), त्यागी आर (22754), मन्डोडी जे (22755), वर्मा सी बी (22756), डीसूजा एन एस (22757), व्यास ए ए (22758), सक्सेना टी (22759), राजगुरु एस (22760), 18 दिसम्बर 2003 से।

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

अनेजा शरद (22677), चरणजीत सिंह (22680), शर्मा ए (22682), साहू टी आर (22683), कुमार एन (22685), अनिल गोयल (22686), कालाघन ए (22687), जोन क्रूज (22688), धाकने एस (22690), शक्तिवेल एस (22691), अतवल एस एस (22693), जोशी आर (22694), श्रीवास्तव एस पी (22695), टोकेकर ए (22696), गौतम एम (22697), भरत डी (22698), बल्यान एस (22699), जोहर जी (22700), जस्वीर सिंह (22702), सेहरावैत आर के (22703), चौधरी राजबीर सिंह (22704), राजीव गर्ग (22705), वर्मा ए (22706), सिंह ए बी (22707), रविन्द्र मान (22708), शरद पसरीचा (22709), सनेमातुम तोकचम (22710), रावत एस एस (22711), तिवारी ए एम (22712), पारिजात कश्यप (22716), अग्रवाल आर (22717), दर एन (22718), संजीव कुमार गुप्ता (22719), विकास वाली (22720), विस्वास एस एन (22723), सोन्धी एस (22724), महाजन एम (22725), दीक्षित पी (22726), हिमांशु गोस्वामी (22728), त्रिपाठी एस के (22729), रूपेश एन (22730), जसवीन सिंह चंद्रत (22731), श्रीहरि बी एस (22732), घट्टी गिरीश शिवपुत्र (22733), विनोद बी (22734), सेतलम विजयकुमार (22735), नितिन शंकर (22736), सुनीलकुमार के (22737), बदोनी बी डी (22738), सिन्हा बी (22740), संदीपराजन पी (22741), शैतन आर आर (22743), कै धर्म राव (22744), शर्मा एस के (22745), जेम्स जे (22746), 18 दिसम्बर 2003 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

तिवारी ए के (22776), 18 दिसम्बर 2003 से

पारिभारिकी शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

खुरानो डी (22749), 18 दिसम्बर 2003 से

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

सिंह सुरेश (22761), जार्ज जे एम (22762), हर्षवर्धन शर्मा (22763), सिंह सूर्यभान (22764), राजू विजय (22765), जोशी एस (22767), मन्दिरमूर्ति एस (22768), आनन्द एन (22769), पुनीत वाम्बू (22770), पांडे एस के (22771), परांजपे एम (22772), दास एम आर (22773), हंसडे एस जी (22774), काही बी (22775), फक्त डी (22778), कै संकेश कुमार (22779), रेवंडी टी एस (22780), टी सेल्वन (22781), जोबी मयंती तावर (22782), 18 दिसम्बर 2003 से।

## परिभाषिकी शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

अय्यर आर आर (22783), खान जी (22784), सतीश एन (22785), सिंह एस के (22786), गयान ए के (22787), बख्शी विक्रम (22788), कुमार रविन्दर (22789), पिलिपोस जे (22790), सिंह पी के (22791), राजवर सी एस (22792), त्रिपाठी वाई (22793), तनेजा एल के (22794), विद्याधर प्रसाद एन (22795), आनन्द सुरतो भर्वा (22776) 18 दिसम्बर 2003 से

## लेखा शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

पी के गुप्ता (22798), एस कुकरेती (22799), गुप्ता आर (22800), दत्ता वी (22801), कमल कांत हीरा (22802), सेल्वा कुमार एस (22803), भानु प्रकाश टी जे (22804), रोशन के जे (22805), 18 दिसम्बर 2003 से।

## प्रशासन शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

के सी बिस्वास (22302), ए के शर्मा (22303), वी के रत (22305), आर सी शर्मा (22306), आर पी सिंह (22307), एम रघुनाथन (22309), एन वी चाको (22310), ए के डे (22311), वी सी एस पिल्लै (22312), डी बासु (22313), आर एल शर्मा (22314), एल डी पांडे (22315), आर वी सिंह (22316), डी एस यादव (22317), वी नागमणि (22318), एम अली (22319), एम ए पाशा (22320), एस एस गौड (22321), ए चक्रवर्ती (22322), दिनांक 06 फरवरी 2004 से।

## लेखा शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

ए पी करुणाकरन (22325), दिनांक 06 फरवरी 2004 से

## शिक्षा शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

एस सी सिंह (22327), दिनांक 06 फरवरी 2004 से

## मौसम शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

आर शाही (22329), दिनांक 06 फरवरी 2004 से

एस श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डी डी पी ओ-3 (डी)

## सेना शाखा

सं. 247, दिनांक 21 अप्रैल 2004--सम्पूर्ण निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आधु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान

करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे में (क्लास x) अधीन एस ए आई 10/5/63 जैसा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं।

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

मेजर प्रकाश पाटिल (आईसी-35737), ए एस सी--15 जुलाई 96 (अ.प्र.)

कैप्टन सी वी सूर्या प्रकाशराव (एसएल-3586), इंजीनियर--26 अगस्त 96 (अ.प्र.)

मेजर डी एस रामाराजू (आईसी-38866), ए ओ सी--01 सितम्बर 96 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) निरेन्द्र मोहन (आईसी-33137), ए ई सी--26 नवम्बर 96 (पू.व.)

ले. कर्नल (टी एस) अतुल चौधरी (आईसी-30911), आर्टी--25 दिसम्बर 96 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) कमलेश कुमार मिश्रा (आईसी-32598), ए ई सी--19 मार्च 97 (अ.प्र.)

मेजर टी एस माधवन (एसएल-2983), ई एम ई--15 अप्रैल 97 (पू.व.)

कैप्टन कृष्ण कुमार (एसएल-3649), सिग्नल--31 मई 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) टी के भास्करण (आईसी-33314), इन्ट. 31 मई 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल राय विश्वनाथ (आईसी-29363), जे ए जी--30 जून 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) गुरमीत सिंह प्रशर (आईसी-30647), ए ई सी--18 अगस्त 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) आर के एम टेनीषोट (आईसी-27296), आर्टी--23 अगस्त 97 (अ.प्र.)

मेजर के पी रविन्द्रन (आईसी-35725), ए ओ सी--15 जुलाई 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल जे वी के रामचन्द्रा (आईसी-36261), आर्टी--06 अगस्त 97 (अ.प्र.)

कैप्टन मोतीलाल मीनारीया (एसएल-3619), जीएच (आरओ)--30 सितम्बर 97 (अ.प्र.)

मेजर एस वी शानमुगहम (एसएल-3041), जी एस--11 अक्टूबर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (डी एस) रंधीर (आईसी-32331), ए ओ सी--31 अक्टूबर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (डी एस) चर्चा एस के बसिक (आईसी-27597), ए ई सी--14 सितम्बर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल एम एस चौहान (आईसी-23955), आर्टी--03 नवम्बर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) जोसफ प्रेम कुमार (आईसी-32940), ईन्ट 10 नवम्बर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) विरेन्द्र सिंह आर्या (आईसी-27930), ए ई सी--31 अक्टूबर 97 (अ.प्र.)

ए/ले. कर्नल डी एल बुनयन (आईसी-31038), एडी आर्टी--17 नवम्बर 97 (अ.प्र.)

मेजर जयराम पी. (आईसी-38334), ए ओ सी--03 नवम्बर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) नरेन्द्र सिंह (आईसी-25888), ईन्ट--30 नवम्बर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) एन के एस यादव (आईसी-27399), आर्टी--20 जनवरी 98 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) एम पी सिंह ओबराय (आईसी-28881), आर्टी--24 जनवरी 98 (अ.प्र.)

मेजर रसगोविन्दा साहू (आईसी-39112), एडी आर्टी--04 जनवरी 98 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) विरेन्द्र सिंह कोहली (आईसी-27499), आर्टी--03 फरवरी 98 (अ.प्र.)

मेजर पॉल सिंह (आईसी-38642), एडी आर्टी--03 फरवरी 98 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) अशोक बेम्बे (आईसी-27791), एडी आर्टी--23 नवम्बर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) कोहली बालकृष्ण (आईसी-32697), ए ओ सी--07 फरवरी 98 (अ.प्र.)

मेजर पी एस नेहरा (आईसी-37064), ए एस सी--17 फरवरी 98 (अ.प्र.)

ले. कर्नल घनश्याम सिंह (वी-314), आर वी सी--17 फरवरी 98 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) एन आर बाबेरवाल (आईसी-30610), ए ई सी--16 दिसम्बर 97 (अ.प्र.)

ले. कर्नल जी के सूद (आईसी-33562), ईन्ट--01 मार्च 98 (अ.प्र.)

मेजर संतोष सिंह (आईसी-35517), ए ओ सी--07 जनवरी 98 (अ.प्र.)

मेजर सुनील कोहली (आईसी-37069), ए ओ सी--23 मार्च 98 (अ.प्र.)

मेजर वाई के कन्धारी (आईसी-36805), आर्टी--23 मार्च 98 (अ.प्र.)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे में (क्लास X) अधीन एस ए आई 10/S/63 जैसा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. कर्नल सिंघल अनिल कुमार (आईसी-38425), इन्फैन्ट्री--30 नवम्बर 2000 (अ.प्र.)

ले. कर्नल खतरपाल रंजीत सिंह (आईसी-36067), एडी आर्टी--04 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) राव चन्द्र शेखर (आईसी-35047), सिग्नल--04 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) सुदीप कुमार दास (आईसी-38608), सिग्नल--04 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) जी आर निहालानी (आईसी-28575), ए एस सी--05 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

कैप्टन जी एस रेड्डी (एसएल-3928), इंजी.--11 अक्टूबर 2000 (अ.प्र.)

मेजर एस एस संधू (आईसी-38967), इन्फैन्ट्री--31 अक्टूबर 2000 (अ.प्र.)

मेजर चौधरी आर के एस (आईसी-47291), इन्फैन्ट्री--31 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

ले. कर्नल दिला गोपीकान्त (आईसी-34141), इन्फैन्ट्री--31 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

ले. कर्नल कार सुनिरमल (आईसी-35029), सिग्नल--29 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

कैप्टन जोगिन्द्र सिंह (एसएल-3905), ई एम ई--27 दिसम्बर 2000 (अ.प्र.)

ले. कर्नल वी एस नारायण (आईसी-33286), सिग्नल--11 नवम्बर 2000 (अ.प्र.)

मेजर रवि गोगना (आईसी-48595), ए ओ सी--16 जनवरी 2001 (अ.प्र.)

मेजर अवतार सिंह (आईसी-41127), इन्फैन्ट्री--09 जनवरी 2001 (पू.व.)

ले. कर्नल पी आर गांगुली (आईसी-25740), ए एस सी--22 जनवरी 2001 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) गुप्ता अजय (आईसी-35951), सिग्नल--30 दिसम्बर 2000 (पू.व.)

ले. कर्नल (टी एस) आर एम शर्मा (आईसी-36860), इंजी.  
--10 नवम्बर 2000 (अ.प्र.)

केप्टन राजदीप बरार (आईसी-43248), ए ओ सी--22 जनवरी  
2001 (अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) धमेन्द्र गुलाटी (आईसी-31431), ए एस  
सी--30 जनवरी 2001 (अ.प्र.)

मेजर सुशील कुमार (आईसी-38869), सिग्नल--05 जनवरी 2001  
(अ.प्र.)

ले. कर्नल (टी एस) बी आर एम रेड्डी (आईसी-33838), एडी  
आर्टी--26 फरवरी 2001 (अ.प्र.)

मेजर रालही के एस (आईसी-47315), आर्टी--10 फरवरी 2001  
(अ.प्र.)

आर के शर्मा  
संयुक्त निदेशक  
ए ए एस/पी आर

#### वायु शाखा

सं. 248, दिनांक 19 अप्रैल 2004--राष्ट्रपति ने निम्नलिखित  
अफसरों की सेवा निवृत्ति की अनुमति प्रदान की है :-

#### भारतीय वायु सेना

##### उड़ान शाखा

##### सेवा निवृत्ति की तारीख

विंग कमांडर एन पवार (12548), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

विंग कमांडर पी पुरी (12513), 31 जुलाई 2001 (एडी)

विंग कमांडर एस यू अटे (12380), 30 नवम्बर 2001 (एडी)

##### विमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर एन के त्रिपाठी (बीसी-17932), 31 जनवरी 2001  
(एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) एस के गंगोपाध्याय  
(बीसी-19746), 31 जनवरी 2001 (एडी)

विंग कमांडर सायलम सी जे ए (12817), 28 फरवरी 2001  
(एडी)

विंग कमांडर (टीएस) जे एम मल्होत्रा (12819), 28 फरवरी  
2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) पी के एस पिल्लई  
(बीसी-19279), 28 फरवरी 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर (एक्टिंग विंग कमांडर) सी आर कौशिक (16927),  
31 मार्च 2001 (एडी)

विंग कमांडर के बी पुरोहित (12649), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) जे आर शर्मा  
(बीसी-19276), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट बी एल सज्जन (बीसी-20532), 30 अप्रैल 2001  
(एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) आर सी पठनिया  
(बीसी-19747), 31 मई 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) नितन के थॉमस  
(बीसी-20527), 31 मई 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) सी एल कुचरू  
(बीसी-20529), 31 मई 2001 (एडी)

विंग कमांडर विजय (13022), 30 जून 2001 (एडी)

विंग कमांडर (टीएस) एम पी चाक्ला (12822), 31 जुलाई  
2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) एन डी पांडे  
(बीसी-18940), 31 जुलाई 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) एन टी पाटिल  
(बीसी-18947), 31 जुलाई 2001 (एडी)

विंग कमांडर आर एस चौहान (15602), 31 अगस्त 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) आर सी सिंह  
(बीसी-19749), 31 अगस्त 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) बी एस बल  
(बीसी-19748), 31 अक्टूबर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) एम बी रामाकृष्णैया  
(बीसी-20525), 31 अक्टूबर 2001 (एडी)

विंग कमांडर (टी एस) एच के अग्रवाल (13051), 30 नवम्बर  
2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) आई एस मिचरा  
(बीसी-18929), 30 नवम्बर 2001 (एडी)

विंग कमांडर एन बी शिखारे (15506), 30 नवम्बर 2001 (एडी)

विंग कमांडर एस सी दीवान (13023), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) आर पी ककर  
(19755), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

##### विमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

विंग कमांडर (टी एस) इकबाल सिंह (11717), 31 जनवरी  
2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर एस एम गुद्दाद (बीसी-17950), 31 जनवरी  
2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एक्टिंग स्क्वाड्रन लीडर) आर एन दास  
(बीसी-19306), 31 जनवरी 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर एस एल गर्ग (बीसी-17949), 28 फरवरी 2001  
(एडी)

स्क्वाड्रन लीडर के के सेठी (बीसी-18375), 31 मार्च 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट जे एस जस (बीसी-18378), 31 मार्च 2001 (एडी)

विंग कमांडर एन के प्रसाद (11197), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) एस एस काडियन (बीसी-19295), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) बी एस मन (बीसी-19777), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) आर एस शर्मा (बीसी-19311), 30 जून 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) टी त्रिपाठी (बीसी-18963), 30 जून 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) एन कृष्णामूर्ति (बीसी-18959), 30 जून 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर पी सी कटोच (17242), 30 जून 2001 (एडी)

विंग कमांडर पी पटनायक (11723), 31 अगस्त 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) एम जी काडेर (बीसी-19785), 31 अगस्त 2001 (एडी)

विंग कमांडर जे के मित्रा (11725), 30 सितम्बर 2001 (एडी)

विंग कमांडर एस एस जे नकबी (13184), 30 सितम्बर 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर आर जी डी सूजा (बीसी-17550), 30 सितम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) के एस सेहरा (बीसी-19310), 31 अक्टूबर 2001 (एडी)

विंग कमांडर (टी एस) जी मधुसूदन (13284), 30 नवम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) बी के पाल (बीसी-19778), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) एक चन्दन (बीसी-19304), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) आर सी भोवानी (बीसी-18965), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर आर एस त्रिपाठी (बीसी-18372), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

#### प्रशासनिक स्तर

स्क्वाड्रन लीडर वी कसन (बीसी-18721), 31 जनवरी 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) बी बी कुटे (बीसी-17610), 28 फरवरी 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर मोहिन्दर सिंह (बीसी-17960), 28 फरवरी 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर एल एस रावैड़ (बीसी-17251), 28 फरवरी 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर बी के कावले (बीसी-17980), 31 मार्च 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर एम पी तेजपाल (बीसी-17562), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर फलीपदा डे (बीसी-18207), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) एल कुमार (बीसी-19609), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर के सिंह (बीसी-18396), 31 मई 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर पी यू श्रीधरन (बीसी-17258), 31 मई 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर के सिंह (बीसी-18396), 31 मई 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर एस भगवान (17496), 30 जून 2001 (एडी)

विंग कमांडर ए एच एम सिन्हा (12334), 31 जुलाई 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर डी एन गुप्ता (बीसी-17581), 31 जुलाई 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) एच एल बीडारी (बीसी-20395), 30 सितम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट आर एल भोग (बीसी-20410), 30 सितम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) के सी हानी (बीसी-20417), 30 सितम्बर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट डी सी लक्ष्मण (बीसी-19608), 31 अक्टूबर 2001 (एडी)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) के सिंह (बीसी-20411), 31 अक्टूबर 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर टी पी बाधूर (बीसी-18206), 30 नवम्बर 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर के आर बरती (बीसी-17971), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर आर डी जोशी (बीसी-17959), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

#### लेखा स्तर

फ्लाईट लेफ्टिनेंट (एकिंग स्क्वाड्रन लीडर) आर के पुनोपन्नयन (बीसी-19999), 28 फरवरी 2001 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर वी ए वैद्यनाथन (बीसी-17259), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

विंग कमांडर बी भौमिक (12738), 30 नवम्बर 2001 (एडी)

विंग कमांडर वी एस सिस्त्य (12731), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

#### परिभारिकी शाखा

विंग कमांडर आर दीक्षित (12357), 30 अप्रैल 2001 (एडी)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम के सुकुमारन (बीसी-20424), 31 मई 2001 (एडी)

विंग कमांडर (टीएस) बी पी एस चण्डी (12497), 31 अगस्त 2001 (एडी)

विंग कमांडर एच एस वराईच (12789), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

विंग कमांडर के के पुरी (12720), 31 दिसम्बर 2001 (एडी)

#### मौसम शाखा

स्क्वाड्रन लीडर एस सिंह (बीसी-17969), 31 मार्च 2001 (एडी)

विंग कमांडर पी के शर्मा (11986), 31 जुलाई 2001 (एडी)

#### शिक्षा शाखा

स्क्वाड्रन लीडर (एक्टिंग विंग कमांडर) सुदर्शन पाल (16665), 31 जुलाई 2001 (एडी)

पी एन्डे

विंग कमांडर

जेडीपीओ-3 (सी)

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 249, दिनांक 20 अप्रैल 2004--तारीख 15-01-2004 में मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप श्री जगदीश चन्द्र देशवाल, त. अ. 'ए', मुख्यालय-बजट, वित्त एवं लेखा निदेशालय, नई दिल्ली को दिनांक 16-01-2004 से नफरी से हटाय जाता है।

जे के खडवाल

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

#### थल सेना विभाग

##### शुद्धिपत्र

सं. 250, दिनांक 15 अप्रैल 2004--रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं. 589, दिनांक 10 सितम्बर 2003 जोकि भारत के राजपत्र संख्या 42 दिनांक 18 अक्टूबर 2003 में प्रकाशित है उसमें शीर्षक थल सेना विभाग कवचित कोर के अंतर्गत निम्न प्रकार की शुद्धि की जाती है:--

#### नायब रिसालदार के रैंक में

##### (क) के लिए

दफादार ध्रुव देव सिंह रामा (सं. 1064635डब्ल्यू अब जेसी-240141एफ), 01 अप्रैल 2003

##### पढ़ा जाए

दफादार ध्रुव देव सिंह राणा (सं. 1064635डब्ल्यू अब जेसी-240141एफ), 01 अप्रैल 2003

##### (ख) के लिए

दफादार राम केहलावन गुप्ता (सं. 1073710डब्ल्यू अब जेसी-240149एन), 17 अप्रैल 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

##### पढ़ा जाए

दफादार राम खेलावन गुप्ता (सं. 1073710डब्ल्यू अब जेसी-240149एन), 17 अप्रैल 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है)

##### (ग) के लिए

दफादार प्रमाथा कुमार बिसवास (सं. 1066076डब्ल्यू अब जेसी-240155एफ), 21 अप्रैल 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मार्च 2003 से दी जाती है)

##### पढ़ा जाए

दफादार परमाथा कुमार बिसवास (सं. 1066076डब्ल्यू अब जेसी-240155एफ), 21 अप्रैल 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मार्च 2003 से दी जाती है)

रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं. 361, दिनांक 23 मई 2003 जोकि भारत के राजपत्र संख्या 25 दिनांक 21 जून 2003 में प्रकाशित है उसमें शीर्षक थल सेना विभाग कवचित कोर के अंतर्गत निम्न प्रकार की शुद्धि की जाती है:--

#### नायब रिसालदार के रैंक में

##### (क) के लिए

दफादार बचन सिंह (सं. 1065248एन जेसी-239950एच), 08 जनवरी 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

##### पढ़ा जाए

दफादार बचन सिंह (सं. 1065248एन अब जेसी-239953एच), 08 जनवरी 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

(ख) के लिए

दफादार भवानी सिंह (सं. 1078214वाई अब जेसी-239971एल), 01 जनवरी 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार भवानी सिंह (सं. 1078214वाई अब जेसी-239971एल), 06 जनवरी 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है)

रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं. 265, दिनांक 28 मार्च 2003 जोकि भारत के राजपत्र संख्या 18 दिनांक 03 मई 2003 में प्रकाशित है उसमें शीर्षक थल सेना विभाग, कवचित कोर के अंतर्गत निम्न प्रकार की शुद्धि की जाती है:--

नायब रिसालदार के रैंक में

(क) के लिए

दफादार शिव पाल सिंह (सं. 1065070एच अब जेसी-239784एम), 03 अक्टूबर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार शिव पाल सिंह (सं. 1065070एच अब जेसी-239784एम), 03 दिसम्बर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाती है)

के लिए

दफादार पी सिखा सतन (सं. 1068071डब्ल्यू अब जेसी-239896एम), 21 नवम्बर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार पी सिखा बालन (सं. 1068071डब्ल्यू अब जेसी-239896एम), 21 नवम्बर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है)

(ग) के लिए

दफादार बंन सिंह (सं. 1069725एफ अब जेसी-239912वाई), 29 नवम्बर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार बंन सिंह (सं. 1069725एफ अब जेसी-239912वाई), 29 नवम्बर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाती है)

(घ) के लिए

दफादार नरेन्द्रा सिंह (सं. 1070235ए अब जेसी-239921ए), 01 अक्टूबर 2002

पढ़ा जाए

दफादार नरेन्द्रा सिंह (सं. 1070235ए अब जेसी-239921ए), 01 दिसम्बर 2002

(च) के लिए

दफादार बलदेव सिंह (सं. 1066568पी अब जेसी-239931के), 18 दिसम्बर 2002

पढ़ा जाए

दफादार बलदेव सिंह (सं. 1066568पी अब जेसी-239931ए), 18 दिसम्बर 2002

(छ) के लिए

दफादार महेन्द्रन डी (सं. 1064940एफ अब जेसी-239954एल), 23 दिसम्बर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार महेन्द्रन डी (सं. 1064640एफ अब जेसी-239954एल), 23 दिसम्बर 2002\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं. 652, दिनांक 14 अक्टूबर 2003 जोकि भारत के राजपत्र संख्या 46 दिनांक 15 नवम्बर 2003 में प्रकाशित है उसमें शीर्षक थल सेना विभाग, कवचित कोर के अंतर्गत निम्न प्रकार की शुद्धि की जाती है:--

नायब रिसालदार के रैंक में

(क) के लिए

दफादार हरपाल सिंह (सं. 10776793एक्स अब जेसी-240114एक्स), 12 अप्रैल 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2002 से दी जाती है)

पढ़ा जाए

दफादार हरपाल सिंह (सं. 10776793एक्स अब जेसी-240114एक्स), 12 अप्रैल 2003\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2002 से दी जाती है)

## (ख) के लिए

दफादार राम सिंह (सं. 1063169ए अब जेसी-240183एन), 26 मई 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

## पढ़ा जाए

दफादार राम सिंह (सं. 1063169ए अब जेसी-240183एन), 26 मई 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है)

## (ग) के लिए

दफादार जी मजबुत सिंह सेनगर (सं. 1065946डब्ल्यू अब जेसी-240194ए), 07 मई 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है)

## पढ़ा जाए

दफादार मजबुत सिंह सेनगर (सं. 1065946डब्ल्यू अब जेसी-240194ए), 07 मई 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है)

## (घ) के लिए

दफादार सुभाष चन्द्र करमाकर (सं. 1068487एन अब जेसी-240197एम), 24 मई 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है)

दफादार सुभाष चन्द्रा करमाकर (सं. 1068487एन अब जेसी-240197एम), 24 मई 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है)

## (च) के लिए

दफादार गनौरी प्रसाद (सं. 1068706के अब जेसी-240212एक्स), 23 जून 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है)

## (छ) पढ़ा जाए

दफादार गनौरी प्रसाद (सं. 1068706के अब जेसी-240212एक्स), 02 जून 2003 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है)

## शुद्धिपत्र

सं. 251, दिनांक 20 अप्रैल 2004--सं. 05, दिनांक 01 फरवरी 2003 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक 'नियमित सेना' सेना दन्त चिकित्सा कोर, अर्द्धस्थायी कमीशन उप शीर्षक लेफ्टि. से कैप्टन के पद पर, में पदोन्नति में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

## के स्थान पर

ए मिसूरिया (डीएस-12016एक्स)--15-11-2002

## पढ़ा जाए

ए मिसूरिया (डीएस-12016एक्स)--15-11-2000

परमजीत सिंह  
मैजर जनरल  
ए डी जी डी एस

-----  
राष्ट्रीय कैंडेट कोर  
लेफ्टिनेंट से कैप्टन

## शुद्धिपत्र

सं. 252, दिनांक 16 अप्रैल 2004--दिनांक 12 जनवरी 2004 के राजपत्र अधिसूचना के प्रारूप के पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाये:--

## के लिए

5. एन जी सुबादानी देवी (एनसीसी/जीडी/पीसी-12505), 07 मई 03

## पढ़ा जाये

5. एन जी सुबादानी देवी (एनसीसी/जीडी/पीसी-12505), 07 जून 03

पी सी रॉय  
कर्नल  
निदेशक (एमएस)



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd May 2004

## ARMY BRANCH

## MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 233, dated the 15th April 2004.—The President is pleased to appoint the following Assistants as Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from the dates shown against each and upto 24 February, 2004 or till regular incumbents become available whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Date of birth	Appointment w.e.f.
1.	Sh. Gulshan Rai	30 Oct 1968	22 Dec 2003
2.	Sh. P P Pudgal	05 Aug 1960	22 Dec 2003
3.	Sh. Chiranjiv Singh	13 Jul 1965	22 Dec 2003
4.	Sh. K N Prasad	26 Oct 1965	23 Dec 2003
5.	Smt. A Srinivasan	30 Apr 1945	01 Jan 2004

The appointment will take effect from the dates the officers assume charge of post.

The appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

## DTE OF GEN OF QUALITY ASSURANCE

The President is pleased to appoint Shri S. K. Malhotra, Assistant (Group 'B' Non-Gazetted) to the grade of Section Officer Group 'B' Gazetted in the AFHQ Civil Service with effect from 05 Feb 2004 (F/N) for a period upto 24th Feb 2004.

The appointment is subject to any modifications that may become necessary in the course of implementation of direction of the Hon'ble High Court of Delhi/CAT and also any other court case that may have a bearing on the seniority in the grade of Assistant.

(SANTOSH DASGUPTA)

Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 234, dated the 16th April 2004.—The President is pleased to make the following appointments:—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Lt Pinki Issac TA(N)-1112, MNS(TA)—13 Sep 2003

Lt Elizabeth Lal TA(N)-1113, MNS (TA)—13 Sep 2003

M L SHARMA  
Under Secy.

No. 235, dated the 21st April 2004.—The President is pleased to make the following appointments:—

## (REGULAR ARMY)

## PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 14 Jun 2003)

The undermentioned Gentlemen Cadets of 112 Regular Course (112 DE, 102 Ex NDA and 79 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 14 Jun 2003 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE, AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

Name, IC No, Arm/Service

Raj Singh Duhan, 62957F—EME

Ajit Khatri, 62958K—EME

Antony Joseph, 62959M—AD

Kapil Khanduri, 62960F—Mech

Ritesh Ramniwas Laddha, 62961K—Inf

Nikhil Bhardwaj, 62962M—AC

Ankur Bhatt, 62963P—Engrs

Vinayak, 62964X—Inf

Damanjit Singh Virk, 62965A—AOC

Rakesh Tokas, 62966H—Inf

Vikas Malik, 62967L—ASC

Manas Nayar, 62968N—Arty

Anil K, 62969W—Inf

Pradeep Kumar, 62970L—Inf

Mohit Sahai, 62971N—Arty

Benjy George Thomas, 62972W—Inf

Karan Bhutla, 62973Y—Inf

Ranjit Singh Pathania, 62975K—AC

Rachit Sharma, 62976M—Arty

Rahul Kanwar, 62977P—ASC

Rahul Vatsyayan, 62978X—Arty

Prateek Sharma, 62979A—Inf

Gaurav Singh, 62980P—AC

Vinod Kumar S Rachannavar, 62981X—Sigs

Prashant Kumar Singh, 62982A—Inf

Rajneesh Kumar, 62983H—Engrs

Rahul Agarwal, 62984L—Inf

K Vijay Anandh, 62985N—Arty

Biswas R Nambiar, 62986W—Inf

Nikit Bisht, 62987Y—Inf	Gajendra Kumar, 63026K—AOC
R Raghavan, 62988F—Inf	Aditya Kapoor, 63027M—Arty
Rajeev Kumar Yadav, 62989K—AOC	Vivek Sabharwal, 63028P—Inf
Paras Rehni, 62990Y—Engrs	Arun Yadav, 63029X—Inf
Tarunendra Pratap Singh, 62991F—Inf	Khundrakpam George Singh, 63030M—AOC
Vivek Mahajan, 62992K—Mech	Anujoy Bhaumik, 63031P—Inf
Saket Rawat, 62993M—Mech	Ashutosh Singh, 63032X—Inf
Shri Ragavendhira Prabu R, 62994P—Arty	Tushar Singh Tomar, 63033A—Inf
Rishi Sharma, 62995X—AOC	Mohit Chauhan, 63034H—Inf
Sunil Kumar, 62996A—Arty	Adarsh Singh Parihar, 63035L—Inf
✓ Vijay Kumar Thapa, 62997H—ASC	Saransh Nigam, 63036N—Inf
Shivam, 62998L—Arty	Koushal Bhatia, 63037W—Inf
Binsu Mathew Cherian, 62999N—ASC	Rajat Singh Jaswal, 63038Y—AC
Rajesh Kumar Bhardwaj, 63000P—AD	Ravi Shekhar Mishra, 63039F—Inf
Raminder Singh, 63001X—Inf	Himanshu Pandey, 63040W—ASC
Shispal Singh Rawat, 63002A—Mech	Pranay Srivastava, 63041Y—Inf
Pradeep Sharma, 63003H—Inf	Jitendra Kumar Chaturvedi, 63042F—Arty
✓ Nikhil Kapoor, 63004L—AD	Ravi Singh Baghel, 63043K—Inf
Rakesh Kumar Singh, 63005N—AOC	Bhavatosh Das, 63044M—Inf
Ram Kumar Singh, 63006W—Arty	Ashwani Joshi, 63045P—Inf
Ankit Sood, 63007Y—Inf	Parveen Jakhar, 63046X—Inf
Neeraj Marwah, 63008F—AC	Mathew Cherian, 63048H—Arty
Kamlesh Kumar Singh, 63009K—Inf	Gaurav Kitchlu, 63049L—Inf
Vinay Kumar, 63010Y—Inf	Sridhar V, 63050A—Arty
Sanjay Bisht, 63011F—Inf	Jagpreet Singh, 63051H—AC
Binit Kumar Singh, 63012K—Inf	Rakesh Katoch, 63052L—Inf
Atul Uttamrao Garje, 63013M—Arty	Bikram Das, 63053N—ASC
Yogender Dutt Sharma, 63014P—Inf	Ashish Rawat, 63054W—Inf
Vivek Elavakunnath, 63015X—Arty	Sachin Jain, 63055Y—AD
Amit Saini, 63016A—Inf	Gopal Arjyal, 63056F—Mech
Ashish Kumar, 63017H—Inf	Sudeep Ghatak, 63057K—Inf
Ashish Anand Abhayankar, 63018L—Arty	Dhruv Raheja, 63058M—AC
Rishi Kesh Sharma, 63019N—AOC	Vipul Gupta, 63059P—Arty
Anurag Talwar, 63020H—Engrs	Aditya Puri, 63060K—Engrs
Sumit Dhagat, 63021L—Sigs	Vineet Kumar, 63061M—AC
Ashutosh Kumar Singh, 63022N—ASC	Vikram Sadhotra, 63062P—Inf
Lagay Tshering Lepcha, 63023W—Inf	Mukesh Kumar Jha, 63063X—Inf
Ravi Ranjan, 63024Y—Arty	Piyush S Katal, 63064A—Arty
Abhishek Bharti, 63025F—AD	Sandeep Rana, 63065H—Inf

Saurabh Lahiri, 63066L—Sigs	Suraj Bhatia, 63105Y—ASC
Amit Bhatnagar, 63067N—AD	K Pratap Singh, 63106F—AC
Pankaj Pal, 63068W—Inf	Charan Singh Shekhawat, 63107K—Inf
✓ Deepak Rana, 63069Y—Inf	Amit Kumar Singh, 63108M—Inf
Punyashlok Brahma, 63070N—Arty	V Prem Kumar, 63109P—Arty
Ghatge Vishal Shivaji, 63071W—Inf	Anindya Chatterjee, 63110K—Inf
Mahipal Lather, 63072Y—Inf	Ryan Chakravarty, 63111M—Inf
Vishwanath Pratap Singh, 63073F—Arty	Bibek Chakrobarty, 63112P—Mech
Gurtej Singh, 63074K—Inf	Sumeet Singh, 63113X—Inf
Mani Inder Pal, 63075M—Inf	Saket Sawhney, 63114A—Inf
Netrajit Chongtham, 63076P—Arty	Ravinder Singh, 63115H—Arty
Amit Kumar Sihag, 63077X—Inf	Suresh N, 63116L—Engrs
Vishal K Deevatagi, 63078A—ASC	Abhishek Bharadwaj, 63117N—Arty
Gaurav Vashisth, 63079H—Arty	Ashutosh Sharma, 63118W—AC
Thomas Sebastian, 63080X—Inf	Rakesh Sharma, 63119Y—Inf
Sunil Kumar Chauvey, 63081A—Inf	Rajsekhar Sharma, 63120N—ASC
Ratnadeep Das, 63082H—Arty	Pankaj Kumar Upadhyay, 63121W—ASC
Saurabh Vats, 63083L—AD	Anand Maria Charles, 63122Y—Inf
Bandi Praveen Arun, 63084N—Arty	Varun Sareen, 63123F—AD
Jagdish Chandra Pant, 63085W—AOC	Dhruv Bora, 63124K—Inf
Nishant Arvind, 63086Y—Arty	Ritesh Tripathi, 63126P—Inf
Prashant Dahiya, 63087F—ASC	Arjun Mohinta, 63127X—Int
Jonathan Varun Benjamin, 63088K—Inf	Manvendra Singh, 63128A—Inf
S Anand, 63089M—Inf	Piyush Kumar Shah, 63129H—Arty
Tarun Bhasin, 63090F—Inf	Krishna Kapoor, 63130X—Inf
Vikram Pratap Singh, 63091K—Inf	Kulwinder Singh, 63131A—AC
Mohit Singh Pathania, 63092M—AC	Anoop Kumar Srivastava, 63132H—Inf
Rajat Mishra, 63093P—EME	Anil Singh, 63133L—Arty
Sumit Kohli, 63094X—AOC	Abhishek Bamola, 63134N—Inf
Ravikumar Vijaykumar Vishwanathe, 63095A—AOC	Viplav Tripathi, 63136Y—Inf
Vikas Shukla, 63096H—Arty	Shishpal Singh, 63137F—Inf
Surender Kumar, 63097L—AC	Ashok Kumar Singh, 63138K—Inf
Hemant Kumar Sharma, 63098N—Arty	Puneet Sharma, 63139M—Arty
Abhishek Zachariah, 63099W—Int	Abhishek Sharma, 63140F—Inf
Piyush Bhatt, 63100A—Inf	Pratap Kumar Dash, 63141K—AD
Mohver Singh Grewal, 63101H—Inf	Jasbir Singh Ghuman, 63142M—EME
Amit Kumar Tyagi, 63102L—Inf	Vishnu Kant Awasthi, 63143P—AOC
Suhel Singh Salaria, 63103N—Inf	Shantanu Kenney, 63144X—Inf
Bimlesh Kumar, 63104W—Inf	Praveer K Ray, 63145A—AOC

Chetan Chopra, 63146H—Inf	S Santosh, 63185F—Mech
Tarun Katyal, 63147L—ASC	Suyog Dave, 63186K—AD
Kushvir Nanda, 63148N—Inf	Gaurav Jaisingh, 63187M—Inf
Varun Bhasin, 63149W—Mech	Giri Raj Dharan, 63188P—Mech
Hardeep Singh Oberoi, 63150L—Arty	Ashutosh Jha, 63189X—Arty
Shoubhik Bhattacharya, 63151N—Sigs	Sanjeev Kumar Rana, 63190M—AOC
NM Manoj Kumar, 63152W—AOC	Shona George, 63191P—Arty
Binu Raj, 63153Y—Inf	Pankaj Thakur, 63192X—AC
C Prasannan, 63154F—Arty	Ranganath Patil, 63193A—Arty
Gagandeep Singh Kohli, 63155K—Arty	Sushmit Banerjee, 63194H—AC
Chandramani Singh, 63156M—Inf	Dev Basu Madhav 63195L—Inf
Sudhakar Dwivedi, 63157P—Inf	Parag Bisht, 63196N—Inf
Srinivas Parthasarthy, 63158X—Arty	Brijendra Singh, 63197W—Inf
Sreejith P Menon, 63159A—Inf	Gautam Anand, 63198Y—Inf
Sumesh, 63160P—Mech	Rajesh Chander Khajuria, 63199F—ASC
Kapil Saini, 63161X—ASC	Aman Kumar Singh, 63200L—Inf
Saurabh Mehrotra, 63162A—Inf	Yunesh Choudhary, 63201N—Inf
Bharat Singh Panwar, 63163H—Inf	Dinesh Singh, 63202W—Inf
Jasbinder Singh Labana, 63164L—Inf	Vishal Sharma, 63203Y—Inf
Mahendra Kumar Tiwari, 63165N—Inf	Sarvapreet Singh Kakkar, 63205K—Inf
Amit Thakur, 63166W—Inf	Arunabh Singh, 63206M—Arty
Ankur Mohan, 63167Y—Inf	Joshi Hemant Mohanlal, 63207P—Inf
Shakti Singh, 63168F—Inf	Vipul Yadav, 63208X—Inf
Joydeep Sarkar, 63169K—Arty	Manish Sharma, 63209A—ASC
Vivek Pancholi, 63170Y—Arty	Mitush Raghav, 63210P—Inf
Ashish Arun Deshpande, 63171F—Inf	Chirom Ibungo, 63211X—Inf
Suneel Kumar, 63172K—AOC	Girish Shekhar, 63212A—Inf
Anil Sonajirao Kadam, 63173M—Inf	Javed Khan, 63213H—AOC
Prateek Gupta, 63174P—Arty	CN Ramesh, 63214L—ASC
Prakash Kumar Singh, 63175X—Arty	Anup Grewal, 63215N—Arty
Akhilesh Kumar, 63176A—AOC	Priyank Sharma, 63216W—Inf
Prashant Singh Khati, 63177H—Inf	Chetan Kumar, 63217Y—AD
Pritish, 63178L—Inf	Arun Prakash Maurya, 63218F—Inf
Pramod Kumar, 63179N—Int	Vijay Kumar Lama, 63219K—Inf
Devesh Shahi, 63180H—ASC	Iyer Arun Rajan, 63220Y—Mech
Chandra Prakash Sharma, 63181L—AD	Sivakumar M, 63221F—Inf
Prashant Jasrotia, 2N—AC	Sumit Kumar Chandel, 63222K—AOC
Akshay Jain, 63183W—Arty	Jaideep Singh, 63223M—AC
Kapil Tyagi, 63184Y—AD	Nanda Kishore Prakash, 63224P—Inf

TM Praveen Kumar, 63225X—Arty  
 Kumar Abhishek, 63226A—Inf  
 Nitin Agnihotri, 63227H—Inf  
 Abhishek Juyal, 63228L—Int  
 Akshay Das, 63229N—Inf  
 Sameer Sharma, 63230H—AC  
 Rajesh Kumar, 63231L—Engrs  
 Mohit Gaur, 63232N—Sigs  
 Debashis Dasgupta, 63233W—Arty

VIJAY SAHGAL  
 Lt Col  
 AMS 8B

### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 236, dated 20th April 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

Dr. Inder Mohan Chhabra to be temporary Scientist 'C' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of one year with effect from 27.11.2001 in the Pay Scale of Rs. 10000-325-15200 and posted in RCI, Hyderabad.

The undermentioned individuals to be temporary Scientists 'B' (Group A) in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500:—

Sl. No.	Name	Estt/ Lab	Date
1	2	3	4
1.	Sh. Vivek Narain Saxena	ARDE, Pune	08 Aug 2002
2.	Sh. Praveen Kumar B	-do-	08 Aug 2002
3.	Sh. Prodyut Kumar Roy	ITR, Balasore	08 Aug 2002
4.	Sh. Milan Kumar Pal	-do-	11 Jul 2001
5.	Ms Saswata Maitra	-do-	08 Aug 2002
6.	Smt. Samala Jayaprada	SCC Bhopal	10 Apr 2001
7.	Ms Souraseni Basu	HEMRL, Pune	11 Jul 2001
8.	Sh. Sunil Jain	-do-	16 Aug 2002
9.	Sh. Dombe Ganesh Shankar	-do-	06 May 2003
10.	Ms Bedatrayee Basu	-do-	08 Aug 2002

1	2	3	4
11.	Sh. Monal Shesh	HEMRL, Pune	13 Aug 2002
12.	Sh. Abhishek Mathur	DEAL, Dehradun	08 Aug 2002
13.	Sh. Zahid Ali	-do-	08 Aug 2002
14.	Ms Chitralekha Ghoshal	RDE (B) Pune	08 Aug 2002
15.	Sh. Mahaveer Prasad	IAT, Pune	03 Dec 2001
16.	Sh. Gajesh Joshi	-do-	08 Aug 2002
17.	Sh. Hemendra Singh Gusain	SASE, Chandigarh	18 Oct 2001
18.	Sh. Sanjay Kumar Dewali	-do-	22 Oct 2001
19.	Sh. Agraj Upadhyay	-do-	17 Oct 2001
20.	Sh. Chandra Shekhar Pandey	SASE, Manali	23 Apr 2002
21.	Miss Jumi Hazarika	IRDE, Dehradun	20 Jul 2001
22.	Sh. Bhawani Singh Solanki	Lastec, Delhi	11 Jul 2001
23.	Sh. V N Panchalai	NPOL, Kochi	30 Apr 2002
24.	Sh. Himanshu Singh	IRDE, Dehradun	20 Aug 2002
25.	Sh. Pradeep Kumar Singh	SCE, Allahabad	24 May 2002
26.	Sh. Ajai Prakash Tripathi	-do-	08 Feb 2002
27.	Sh. Bobin Mondal	DL, Jodhpur	21 Mar 2000
28.	Sh. Pradip Saha	ITR, Balasore	15 Feb 2001
29.	Sh. Raj Kumar	INMAS, Delhi	12 Nov 2001
30.	Sh. Anupam Kaul	ISSA, Delhi	08 Aug 2002
31.	Sh. Jai Shankar Kumar	-do-	28 Aug 2002
32.	Sh. Anandadip Mandal	WESEE, New Delhi	08 Aug 2002
33.	Sh. Deepak	TBRI, Chandigarh	20 Aug 2002
34.	Sh. Yamit Bhupatrai Mehta	ISSA, Delhi	08 Aug 2002

Having qualified in the Limited Departmental Examination 2002 held in terms of Rule 8(a) of the DRDS Rules 1979, the undermentioned individual(s) to be

Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Services on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500:—

Sanjeev Kumar, DMSRDE, Kanpur—31 Dec 2002

JK KHADWAL  
Jt Dir (Pers)

(NAVY BRANCH)

No. 237, dated 20th April 2004.—The President is pleased to make the following appointment in the executive Branch (Logistics Cadre) of the Indian Navy for direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. OF/1553/NHQ/393/US(P)/D(N-II) dated 30th September 2002 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On probation)

DIRECT ENTRY SCHEME EXECUTIVE BRANCH  
(LOGISTICS CADRE)

Bhatnagar Sandeep (05184-F), SSC—02 Jul 2001

ANIL KUMAR  
Commander  
JDMRP (R&R)

(AIR BRANCH)

No. 238, dated 19th April 2004.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (on probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr wef the date as mentioned against them, under the provisions of AFO 59/98. The officer will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (on probation) i.e. 18 Dec 99.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Ujjwal Govil (25841), Rahul Shukla (25845), Jeyjo Pothen (25851) wef 18 Dec 99.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service and grant Short Service Commission to the undermentioned U/T officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. 4(4)/90/D(Air-III) dated 18 Jul 91.

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE (ATC/FC) BRANCH

U/T OFFICERS TO BE FG OFFR

Fg Offr K Vinod (27068), Shah Amber (27069), Harjeet Singh (27070), Bijender Singh (27071), AP Shaju (27072), Subhash Chander (27073), AK Priyadarshi

(27074), Sanjeev Wazir (27075), Mihir Kumar (27076), Vikas (27077), Amandeep Singh (27078), R Senthilnathan (27079), Shivraj Singh (27080), Jangam EN Pranil (27081), Sanjeev Singh (27082), Deepak Kumar Singh (27083), NM Shabeer Ali (27084), Ravi Jain (27085), PK Sinha (27086), P Veera Reddy (27087), Vasu Kapil (27088), Sunil Kumar Chahar (27089), Surinder Singh (27090), Pushpendra Singh (27091), K Srinivasan (27092), Shirish Hari Karmarkar (27093), Bhagwat P Nautiyal (27094), Vijay Baunthiyal (27095), KA Nagarajan (27096), Amit Uppal (27097), M Balasubramanyam (27098), TV Gopala Krishna (27099), Narender P Uniyal (27100), Sushant Bhatt (27101), SS Chaudhary (27102), P Kamath Prashant (27103), Vatturi Rohit (27104), Manish Dutta (27105), Gaurav Asthana (27106), Chetan Kumar Jain (27107), V Raja Venkatesh Kumar (27108) wef 28 Jun 2002.

S SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO-3(D)

(FINANCE DIVISION)

No. 239, dated 15th April 2004.—The President is pleased to continue the appointment of Shri Rajbir Singh, Shri S.P. Kapoor, and Ms. Sukhpal walia Stenographers Grade 'C' borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Private Secretaries on ad-hoc basis with effect from 01.01.2004 to 31.03.2004 or till regular officer becomes available or till further orders, whichever is earlier.

(M.C. LUTHER)  
Dy. Financial Adviser (E)

No. 240, dated 15th April 2004.—On completion of his tenure/earned leave granted to him, the services of Shri B.B. Thakur, CE&MES (CPWD: 78), Director, Ministry of Defence are placed at the disposal of the C.P.W.D. Directorate General of Works, Nirman Bhawan, New Delhi w.e.f. 11 Mar 2004 (AN).

Consequent on his lateral transfer to the Cabinet Secretariat, the services of Shri KL Sharma, CSS, working as Deputy Secretary on personal/adhoc basis in the Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Cabinet Secretariat w.e.f. 01 Mar 2004 (FN).

V SARASWATHY  
Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 241, dated 19th April 2004.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the date as shown against them, who was awarded Permanent Commission and Wings (On probation) under the provisions of AFO 58/98.

**INDIAN AIR FORCE  
FLYING (PILOT) BRANCH**

**EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS**

Fg Offr Ujjwal Govil (25841), Rahul Shukla (25845), Jeyjo Pothan (25851) wef 18 Dec 99.

The President is pleased to confirm the undermentioned Short Service Commission officers wef the date stated against her names:—

**INDIAN AIR FORCE  
ADMINISTRATIVE BRANCH**

Fg Offr Pooja Thakur (26611), Navrattan Kaur (26612), Pratibha Sharma (26613), Parul Mishra (26614), Archana Singh (26615), Meenakshi Sharma (26616), Shalini Choudhary (26617), Sonia Rawat (26618) wef 16 Jun 2001.

**ACCOUNT BRANCH**

Fg Offr Daizy Mehta (26619), Arpita Mishra (26620), Namita Anand (26621), Promila Kumari Dhaka (26622), Shaloo Gautam (26623), Preeti Bahuguna (26624) wef 16 Jun 2001.

**EDUCATION BRANCH**

Fg Offr Anjali Gupta (26625), Poonam Negi (26626) wef 16 Jun 2001.

**METEOROLOGY BRANCH**

Fg Offr Shreya Pandit (26211), Vinila Verma (26212) wef 16 Jun 2001.

S SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO-3(D)

**(ARMY BRANCH)**

No. 242, dated 15th April 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**

**INFANTRY**

**THE JAT REGIMENT**

**To be Nb Sub**

Hav Sharwan Kumar (No. 3180762W now JC-489431M), 30 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Autar Singh (No. 3176501L now JC-489432P), 01 Aug 2003

Hav Sardar Singh (No. 3175318W now JC-489433X), 07 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Room Singh (No. 3186387M now JC-489434A), 20 Sep 2003

Hav Bhaker Ram (No. 3175056L now JC-489435H), 01 Dec 2003

Hav Vijender Singh (No. 3181485H now JC-489436L), 18 Dec 2003

Hav Mahabir Prasad Godara (No. 3174690F now JC-489437N), 20 Dec 2003

Hav Mohan Singh (No. 3173618Y now JC-489438W), 14 Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sukha Ram (No. 3176284A now JC-489439Y), 01 Jan 2004

**To be Nb Sub (Clk)**

Hav Clk Jage Ram (No. 3177537W now JC-489440N), 01 Feb 2004

**To be Nb Subedar**

Hav Amar Bahadur Thapa (No. 5345220K now JC-612515K), 13 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2003).

Hav Nil Prasad Thapa (No. 5345321X now JC-612516M), 13 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2003).

Hav Nanda Bahadur Thapa (No. 5345426F now JC-612517P), 13 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2003).

Hav Top Bahadur Thapa (No. 5344439M now JC-612518X), 13 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2003).

Hav Min Narayan Thapa Magar (No. 5345386L now JC-612519A), 13 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Nov 2003).

Hav Him Bahadur Thapa (No. 5344898L now JC-612520P), 27 Jan 2004\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Nov 2003).

Hav Eman Singh Rana (No. 5344946A now JC-612521X), 22 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2003).

Hav Dinesh Kumar Gurung (No. 5345249M now JC-612522A), 25 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 16 Dec 2003).

Hav Guman Singh Ale (No. 5344940Y now JC-612523H), 17 Jan 2004\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 28 Dec 2003).

Hav Bir Bahadur Gurung (No. 5345406N now JC-612524L), 28 Dec 2003\*

Hav Sanjay Kumar (No. 5345805X now JC-612525N), 28 Dec 2003\*

Hav Lil Kumar Rana (No. 5345616N now JC-612526W), 28 Dec 2003\*

Hav Sanjay Gurung (No. 5345694L now JC-612527Y), 28 Dec 2003\*

Hav Mam Bahadur Gurung (No. 5345255A now JC-612528F), 01 Jan 2004\*

Hav Chutra Bahadur Thapa (No. 5345288L now JC-612529K), 20 Jan 2004\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2004).

Hav Ash Bahadur Thapa (No. 5345478X now JC-612530Y), 01 Jan 2004\*

Hav Ravindra Gurung (No. 5345475K now JC-612531F), 19 Jan 2004\*

\*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2004).

1 GR

To be Nb Sub

Hav/Clk Surendra Singh Negi (No. 5043030A now JC-602524X), 02 Oct 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Sep 03).

CHM Hari Bahadur Thapa (No. 5043153H now JC-602525A), 05 Sep 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 11 Aug 03).

Hav Til Bahadur Gurung (No. 5042708W now JC-602526H), 24 Oct 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Sep 03).

Hav Ram Parsad Thapa, SM (No. 5042442P now JC-602527L), 22 Oct 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Oct 03).

Hav Ram Bahadur Gurung (No. 5042887F now JC-602528N), 01 Oct 2003

CHM Devi Ram Thapa (No. 5042558L now JC-602529W), 26 Nov 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 11 Aug 03).

CHM Purna Bahadur Gurung (No. 5042530L now JC-602530L), 07 Dec 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Oct 03).

CQMH Bal Bahadur Thapa (No. 5042531N now JC-602531H), 26 Nov 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Oct 03).

Hav Netra Bahadur Rana (No. 5043012X now JC-602532W), 01 Nov 2003

CHM Ram Bahadur Thapa (No. 5043516L now JC-602533Y), 01 Sep 2003

Hav Khem Bahadur Thapa (No. 5041946W now JC-602534F), 08 Dec 2003\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Dec 03).

Hav Lil Bahadur Rana (No. 5042680F now JC-602535K), 26 Jan 2004\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Jan 04).

Hav Bharat Bahadur Thapa (No. 5042542A now JC-602536M), 01 Jan 2004

Hav Ram Bahadur Gurung (No. 5042673L now JC-602537P), 01 Jan 2004

Hav Dil Bahadur Gurung (No. 5042899W now JC-602538X), 01 Feb 2004\*

\*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & allces wef 01 Jan 04).

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav K Natarajan (No. 2582803L now JC-439323M), 01 Jul 2003

Hav Jade Gouda (No. 2588284K now JC-439319K), 01 Aug 2003

Hav Kore Mahadev Narayan (No. 2587393K now JC-439320Y), 01 Aug 2003

Hav Prasannan Pillai B (No. 2586776K now JC-439321F), 13 Aug 2003

Hav Jose PJ (No. 2586623A now JC-439328L), 01 Sep 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 30 Jun 2002 without effect on pay and allces).

Hav S Maria Anthony (No. 2582084X now JC-439327H), 01 Oct 2003



Hav Sadasivan Pillai KS (No. 2584414K now JC-439329N), 01 Jun 2003

Hav Jayarama MP (No. 2588866K now JC-439324P), 22 Aug 2003

Hav A Chandira Sekaran (No. 2591210A now JC-439330H), 09 Sep 2003

Hav Muthukrishnan M (No. 2584002H now JC-439326A), 01 Oct 2003

Hav Prakash Abraham (No. 2585969X now JC-439325X), 01 Oct 2003

Hav Babu MM (No. 2584906H now JC-439331L), 01 Nov 2003

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Manohar Singh (No. 13743717F now JC-579618A), 08 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 Aug 2003).

Hav Arun Kumar Badhan (No. 13745005X now JC-579619H), 23 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 Aug 2003).

Hav Raj Pal Chaudhary (No. 13747883M now JC-579620X), 11 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 Aug 2003).

Hav Nirmal Singh Jamwal (No. 13747891L now JC-579621A), 20 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 Aug 2003).

Hav Shyam Singh (No. 13748813A now JC-579622H), 23 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 Aug 2003).

Hav Raj Kumar (No. 13749144Y now JC-579623L), 22 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 Aug 2003).

Hav Naresh Kumar (No. 13747926W now JC-579624N), 08 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 23 Aug 2003).

Hav Bhag Singh (No. 13749417W now JC-579625W), 20 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2003).

Hav Prem Chand Bhat (No. 13743777W now JC-579626Y), 17 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2003).

Hav Raghbir Chand (No. 13742044L now JC-579627F), 15 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 19 Oct 2003).

Hav Jaswant Singh (No. 13744116H now JC-579628K), 27 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 19 Oct 2003).

Hav Om Parkash (No. 13744118N now JC-579629M), 18 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 19 Oct 2003).

Hav Sunil Kumar (No. 13744966M now JC-579632M), 01 Nov 2003

Hav Abtar Singh (No. 13743966A now JC-579633P), 01 Nov 2003

To be Nb Sub/Cik (GD)

Hav Ramesh Chand Rana (No. 13748644K now JC-579630F), 03 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).

Hav Harpal Singh (No. 13749026L now JC-579631K), 01 Nov 2003

To be Nb Sub (GD)

Hav Bakhshish Singh (No. 13746698M now JC-579634X), 20 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2003).

Hav Som Bahadur Rana (No. 13750422N now JC-579635A), 06 Dec 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2003).

Hav Chaudhari Ram (No. 13745593W now JC-579636H), 01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2003).

Hav Joginder Singh (No. 13744817Y now JC-579637L), 01 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2003).

Hav Parmjit Singh (No. 13744055W now JC-579638N), 18 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2003).

Hav Kashmir Singh Guleria (No. 13743507F now JC-579639W), 21 Nov 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 15 Oct 2003).

Hav Bhola Ram (No. 13742926M now JC-579640L), 01 Nov 2003

Hav Shambhu Ram Sharma (No. 13742670P now JC-579641N), 09 Dec 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 03 Nov 2003).

Hav Baljeet Singh (No. 13745594Y now JC-579643Y), 05 Dec 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2003).

Hav Devinder Kumar (No. 13744132A now JC-579644F), 01 Dec 2003

Hav Kuldip Singh (No. 13744203W now JC-579645K), 03 Dec 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2003).

Hav Dharam Paul (No. 13744184W now JC-579646M), 01 Dec 2003

Hav Ram Singh (No. 13743330Y now JC-579647P), 01 Dec 2003

To be Nb Sub/Cik (GD)

Hav Dhana Singh (No. 13747331Y now JC-579642W), 01 Dec 2003

#### THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Maniram Deka (No. 4353445L now JC-548819X), 03 May 2003/01 Dec 2002

Hav Aswini Kumar Nath (No. 4353247A now JC-548896M), 01 Oct 2003

Hav Thengogin Baite (No. 4352514K now JC-548903F), 22 Nov 2003/14 Aug 2003

Hav J.P. Tuang (No. 4358269H now JC-548904A), 01 Sep 2003

Hav Pukhrambam Bijoy Singh (No. 4355468L now JC-548905M), 21 Nov 2003/20 Apr 2003

Hav Nila Chand Singh (4355794N now JC-548906L), 05 Dec 2003/14 Aug 2003

Hav Bhadra Chetia (No. 4353430H now JC-548907N), 05 Dec 2003/01 Oct 2003

Hav Jiban Bhagwati (No. 4353495W now JC-548909Y), 05 Dec 2003/01 Nov 2003

Hav Barindra Kumar Singha (No. 4354056X now JC-548910N), 01 Jan 2004

Hav Aswini Kumar Brahma (No. 4354275Y now JC-548911W), 01 Jan 2004

Hav Naren Chandra Gogoi (No. 4352858X now JC-548912Y), 02 Jan 2004/01 Oct 2003

Hav Raghab Chandra Nath (No. 4352860A now JC-548913F), 01 Dec 2003/01 Oct 2003

Hav Narmal Chandra Borah (No. 4352885M now JC-548914K), 01 Dec 2003/01 Oct 2003

Hav Zamchinlam Simte (No. 4351571Y now JC-548915M), 01 Dec 2003/01 Oct 2003

Hav Kamaleswar Borborah (No. 4353368F now JC-548917X), 01 Dec 2003/01 Oct 2003

Hav Ananda Chandra Das (No. 4353523X now JC-548918A), 15 Jan 2004/01 Oct 2003

Hav Bel Bahadur Thapa (No. 4426443W now JC-548919H), 01 Jan 2004/01 Oct 2003

Hav Atul Chandra Das (No. 4351611P now JC-548924N), 13 Dec 2003/01 Oct 2003

Hav Hautinthang (No. 4351701W now JC-548925W), 19 Dec 2003/15 Oct 2003

Hav Sukanta Singha (No. 4352859L now JC-548908W), 04 Feb 2004/01 Oct 2003

Hav Lal Bihari Singha (No. 4353028X now JC-548926Y), 02 Feb 2004/01 Nov 2003

To be Nb Sub Cik

Hav Cik Rohtas (No. 4357227K now JC-548933P), 01 Feb 2004

Hav Cik Krishna Kumar Singh (No. 4357262M now JC-548934X), 01 Feb 2004

Hav Cik Akhil Baruah (No. 4355541Y now JC-548935A), 01 Feb 2004

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jagtar Singh (No. 3980399M now JC-519786P), 26 Nov 2003

Hav Tulsī Dass (No. 3980994W now JC-519787X), 01 Dec 2003

Hav Vijay Singh Patyal (No. 3980663A now JC-519788A), 31 Dec 2003+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sital Singh (No. 3980702H now JC-519789H), 26 Dec 2003

Hav Ram Lal (No. 3980665A now JC-519790X), 30 Dec 2003

Hav Raj Mal Thakur (No. 3980430N now JC-519791A), 14 Jan 2004

Hav Parmodh Singh (No. 3980442H now JC-519792H), 23 Jan 2004

Hav Ramesh Chand Thakur (No. 3986963M now JC-519793L), 01 Feb 2004

Hav Ram Singh (No. 3980456H now JC-519794N), 01 Feb 2004

Hav Tilak Raj (No. 3981804L now JC-519795W), 01 Feb 2004

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Kishori Lal (No. 3983498A now JC-519796Y), 01 Oct 2003

11 GR

To be Nb Sub

Hav Arjun Kumar Pradhan (No. 9416162W now JC-634530Y), 22 Jan 2004@

%(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Aug 2003).

Hav Kapil Rai (No. 9417741P now JC-634531F), 16 Jan 2004#

%(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Nov 2003).

Hav Prabat Chandra Rai (No. 9417760A now JC-634532K), 03 Feb 2004\$

\$(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Jan 2004).

Hav Gam Bahadur Rai (No. 9416710H now JC-634533M), 15 Jan 2004%

%(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Jan 2004).

Hav Prem Kumar Rai (No. 9415814X now JC-634534P), 15 Feb 2004&

&(Gtd seniority w/o effect on pay and allce wef 01 Jan 2004).

#### THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Abraham OM (No. 2980659W now JC-479333Y), 01 Jan 2004

To be Nb Sub

Hav Rajbir Singh (No. 2980925K now JC-479334F), 05 Jan 2004%

%(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sappu Singh (No. 2988018Y now JC-479335K), 08 Oct 2003

Hav Herumb Prasad Mishra (No. 2979402Y now JC-479336M), 24 Dec 2003%

%(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Murari Lal (No. 2985598W now JC-479337P), 14 Nov 2003%

%(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Jay Pal (No. 2981264F now JC-479338X), 04 Nov 2003

Hav Samsuddin Ali Khan (No. 2979974A now JC-479339A), 20 Nov 2003

Hav Braham Pal Singh (No. 2977893F now JC-479340P), 07 Dec 2003%

%(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rohitash (No. 2976699A now JC-479341X), 13 Dec 2003%

%(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kalipoda Bepari (No. 2982011Y now JC-479342A), 01 Jan 2004

Hav Pyar Singh Yogi (No. 2981604Y now JC-479343H), 01 Jan 2004

Hav Nariwan (No. 2982264N now JC-479344L), 01 Jan 2004

Hav Indra Singh (No. 2978403P now JC-479345N), 17 Jan 2004%

%(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rabi Lal Singha (No. 2981671K now JC-479346W), 01 Jan 2004

Hav Sundar Lal Mishra (No. 2978847Y now JC-479347Y), 01 Jan 2004

Hav Jagroop Singh Parihar (No. 2984459X now JC-479348F), 05 Jan 2004

Hav Brojendra Chandra Roy (No. 2987353W now JC-479349K), 07 Jan 2004

Hav Manohar Singh (No. 2977564L now JC-479350Y), 18 Jan 2004

Hav Jagdish Singh (No. 2977702F now JC-479351F), 28 Jan 2004

#### JAK LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Bodh Raj (No. 9084625L now JC-593134L), 09 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Sep 2003)

Hav Pawan Kumar (No. 9085129W now JC-593135N), 19 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004)

Hav Raj Singh (No. 9084420W now JC-593136W), 14 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004)

Hav Suresh Chand Thakur (No. 9084709Y now JC-593137Y), 12 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004)

Hav Jagar Ram (No. 9086497X now JC-593138F), 23 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004)

Hav Kura Ram (No. 9086135W now JC-593139K), 07 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004)

To be Naib Subedar (Clerks)

Hav (Clk) Rakesh Kumar Bhardwaj (No. 9088026H now JC-593131X), 25 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004)

Hav (Clk) Ram Bharose Lal (No. 9088118P now JC-593132A), 14 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004)

Hav (Clk) Sham Singh Chark (No. 4069503P now JC-593133H), 30 Jan 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004)

#### THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Gurwel Singh (No. 4460990M now JC-509064P), 01 Oct 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Apr 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Baljit Singh (No. 4462719F now JC-509065X), 01 Jan 2003

Hav Sabinder Singh (No. 4463164X now JC-509066A), 08 Feb 2003

Hav Bikkar Singh (No. 4466871M now JC-509067H), 01 Apr 2003

Hav Baljinder Singh (No. 4467868Y now JC-509068L), 01 Jun 2003

Hav Jasvir Singh Singh (No. 4467245P now JC-509069N), 19 Jul 2003

Hav Jasbir Singh (No. 4466745A now JC-509070H), 22 Aug 2003

Hav Gurnam Singh (No. 4461831F now JC-509071L), 01 Oct 2003

Hav Gopal Krishan Singh (No. 4465579L now JC-509072N), 01 Oct 2003

Hav Sham Singh (No. 4464218A now JC-509073W), 11 Feb 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Nov 2003 without effect on pay and allowances)

Hav Bala Singh (No. 4460884M now JC-509074Y), 01 Dec 2003

Hav Gurmit Singh (No. 4461018Y now JC-509075F), 01 Dec 2003

Hav Jaspal Singh (No. 4463368K now JC-509076K), 01 Dec 2003

Hav Balwinder Singh (No. 4462631X now JC-509077M), 01 Dec 2003

Hav Bhola Singh (No. 4467561N now JC-509078P), 01 Jan 2004

Hav Hardev Singh (No. 4459922M now JC-509079X), 01 Jan 2004

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD)

Hav Kamlesh Singh (No. 4259428M now JC-559224A), 19 Jan 2004/06 Sep 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 06 Sept 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Singh Munda (No. 4261110N now JC-559225H), 18 Jan 2004/09 Sep 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 09 Sept 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Lalan Singh (No. 4261686L now JC-559226L), 25 Dec 2003/15 Sep 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 Sept 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bijay Jerom Toppo (No. 4262425K now JC-559227N), 04 Dec 2003/01 Oct 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ganjhiya Oraon (No. 4259244N now JC-559228W), 29 Dec 2003/01 Nov 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rimis Bara (No. 4262422W now JC-559229Y), 14 Jan 2004/01 Nov 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Dinesh Singh Yadav (No. 4257188F now JC-559230N), 29 Dec 2003/15 Nov 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rangjee Singh (No. 4259694L now JC-559231W), 06 Jan 2004/01 Dec 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Shambhu Nath Singh (No. 4258092L now JC-559232Y), 01 Jan 2004

Hav Radha Mohan Singh (No. 4260650A now JC-559233F), 01 Jan 2004

Hav Ram Pukar Sah (No. 4259406N now JC-559234K), 01 Jan 2004

Hav Jitray Marndi (No. 4264908A now JC-559235M), 06 Feb 2004/01 Jan 2004 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kalidhan (No. 4259532A now JC-559236P), 20 Jan 2004/01 Jan 2004 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Boas Nag (No. 4259641M now JC-559237X), 22 Jan 2004/01 Jan 2004 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Mathias Toppo (No. 4261616M now JC-559238A), 24 Jan 2004/01 Jan 2004 (seniority)\*

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rama Shankar Singh (No. 4259793N now JC-559239H), 06 Feb 2004/01 Feb 2004 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagaban Ghadel (No. 4262464H now JC-559202F), 01 Oct 2003/10 Jan 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kishore Singh (No. 4259036Y now JC-559203K), 01 Jan 2004/01 Feb 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Martin Nag (No. 4258328P now JC-559204M), 07 Dec 2003/01 Jun 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Vidyarathi Yadav (No. 4259073M now JC-559205P),

20 Jul 2003/01 Jul 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Pankaj Kumar Mehta (No. 4259932M now JC-559206X), 20 Jul 2003/01 Jul 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdev Nag (No. 4265201W now JC-559207A), 26 Nov 2003/01 Jul 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Victor Topno (No. 4264052M now JC-559208H), 26 Nov 2003/01 Jul 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Domnik Kujur (No. 4260341X now JC-559209L), 20 Jul 2003/01 Jul 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sheojee Singh (No. 4259373N now JC-559210A), 28 Nov 2003/01 Jul 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Livinus Minj (No. 4262925F now JC-559211H), 26 Nov 2003/01 Jul 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 4261729P now JC-559212L), 26 Nov 2003/01 Aug 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Lal Kumeti (No. 4270518N now JC-559213N), 04 Dec 2003/26 Sep 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Narayan Prakash Singh (No. 4260075K now JC-559214W), 30 Nov 2003/01 Nov 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sursen Guria (No. 4261162K now JC-559215Y), 30 Nov 2003/01 Nov 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwan Lal Roy (No. 4261396N now JC-559216P), 07 Dec 2003/01 Nov 2003 (seniority)

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Kumar (No. 4265900A now JC-559217K), 12 Jan 2004/24 Nov 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kahnu Charan Sahoo (No. 4267433M now JC-559218M), 11 Jan 2004/01 Dec 2003 (seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bipin Bihari Singh (No. 4267866K now JC-559219P), 01 Jan 2004.

Hav Laxman Prasad (No. 4259443F now JC-559220K), 01 Jan 2004.

Hav Chandra Shekhar Dubey (No. 2594280K now JC-559221M), 01 Jan 2004.

Hav Hari Narayan Singh (No. 4260064X now JC-559222P), 01 Jan 2004.

Hav Silas Bengra (No. 4261854Y now JC-559223X), 01 Jan 2004.

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 243, dated 20th April 2004.—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78, as amended vide AI 4/96:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### PERMANENT COMMISSION

Col & Equivalent to be Brig

Brig K Ravishankar (DR-10281P), 17 Nov 2003—with notional seniority from 01.03.03, without effect on pay & allowances.

Brig Mahesh Chander (DR-10288Y), 17 Nov 2003—with notional seniority from 01.06.03, without effect on pay & allowances.

Brig H G Garge (DR-10290W), 12 Nov 2003—with notional seniority from 20.06.03, without effect on pay & allowances.

Brig S M Mohan (DR-10295P), 12 Nov 2003—with notional seniority from 01.09.03, without effect on pay & allowances.

Brig Vimal Arora, VSM (DR-10298H), 13 Nov 2003—with notional seniority from 28.10.03, without effect on pay & allowances.

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl. DGDS

No. 244, dated 21st April 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

Ramji Rai (MR-2064K), 30.09.2003—with notional seniority without effect on pay and pension from 01.09.03.

AVM (& equivalent) to be AM (& equivalent)]

PK Sarkar (MR-2551K) (AF-26480K), 30.09.03—with notional seniority without effect on pay & pension from 01.07.03.

Gp Capt (& equivalent) to be Air Cmde (& equivalent)

H Subramanya (MR-2960X) (AF-12960), 01.08.03—with notional seniority without effect on pay & pension from 01.06.03.

M. SRIVASTAVA  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 245, dated 20th April 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research and Development Service with effect from the date shown against their names in the pay scale of Rs. 10000-325-15200:—

Dr. Radhey Shyam, ADRDE, Agra—01 Jul 2003

Sh. R. P. Bhatt, DARL, Pithoragarh—01 Jul 2003

Sh. S Chandra Mohan, ITR, Balasore—01 Jul 2003

Sh. P. H. Lankennavar, DL Jodhpur—01 Jul 2003

Sh. Prasun Kumar Roy, CFEES, Delhi—01 Jul 2003

Sh. D Venkateswarulu, SBC, Visakhapatnam—01 Jul 2003

Sh. T V Venkatesha, SBC, Visakhapatnam—01 Jul 2003

Sh. Manippaty Sailu, SBC, Visakhapatnam—01 Jul 2003

The undermentioned Technical Officer(s) 'B' to be Technical Officer (s) 'C' in the Defence Research & Technical Cadre with effect from the dates shown against their names in the pay scale of Rs. 10000-325-15200:—

Sh. Sarathi Mitra, PXE, Chandipur—01 Sep 2003

Sh. MY Deshmukh, HEMRL, Pune—03 Nov 2003

The undermentioned Technical Officer(s) 'A' to be Technical Officer(s) 'B' (Group A Gazetted) in the Defence Research & Technical Cadre, in PXE, Chandipur, on probation for a period of two years with effect from 01.09.2003 in the pay scale of Rs. 8000-275-13500:—

H N Panigrahi  
M S Mohanty  
S C Giri  
S K Jena  
S K Pati

The undermentioned Senior Technical Assistants to be Technical Officers 'A' (Group 'B' Gazetted) in the Defence Research & Technical Cadre with effect from 01.09.2003 in the pay scale of Rs. 7450-225-11500:—

Sh. Susanta Kumar Singh, PXE, Chandipur  
Sh. Narayan Chandra Dash, PXE, Chandipur  
Sh. Kedarnath Panda, PXE, Chandipur  
Sh. Lawrence Aind, PXE, Chandipur  
Sh. S Sathyanarayana, LRDE, Bangalore  
Sh. A N Sivaraman, LRDE, Bangalore  
Sh. R Nagendra, LRDE, Bangalore  
Sh. Nagaraja Rao, LRDE, Bangalore

J. K. KHADWAL  
Jt. Dir (Pers)

#### AIR FORCE

No. 246, dated 19th April 2004.—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

##### F(N) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Manoj Kumar RS (22747), Nikam SKR (22748), S Sharma (22750), Vaisnavi S (22751), Ahluwalia A (22753), Tyagi R (22754), Mandody J (22755), Varma CB (22756), D'Souza NS (22757), Wyas AA (22758), Saxena T (22759), Rajguru S (22760), 18 December 2003.

##### F (P) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Aneja Sharad (22677), Charanjit Singh (22680), Sharma A (22682), Sahu TR (22683), Kumar N (22685), Anil Goyal (22686), Callaghan A (22687), John Cruz (22688), Dhakate S (22690), Sakthivel S (22691), Atwal SS (22693), Joshi R (22694), Srivastava SP (22695), Tokekar A (22696), Gautam M (22697), Bharath D (22698), Balyan S (22699), Johar G (22700), Jasbir Singh (22702), Sehrawat RK (22703), Chaudhry Rajbir Singh (22704), Rajiv Garg (22705), Verma A (22706), Singh AV (22707), Ravinder Mann (22708), Sharad Pasricha (22709), Sanamatum Thokcham (22710), Rawat SS (22711), Tiwari AM (22712), Parijat Kashyap (22716), Agrawal R (22717), Dhar N (22718), Sanjiv Kumar Gupta (22719), Vikas Bali (22720), Biswas SN (22723), Sondhi S (22724), Mahajan M (22725), Dikshit P (22726), Himanshu Goswami (22728), Tripathi SK (22729), Roopesh N (22730), Jasween Singh Chattrath (22731), Srihari VS

(22732), Ghatti Girish Shivaputra (22733), Vinod V (22734), Setlem Vijay Kumar (22735), Nitin Shankar (22736), Sunil Kumar K (22737), Badoni VD (22738), Sinha V (22740), Sundeeep Rajan P (22741), Rauthan RR (22743), K Dharma Rao (22744), Sharma SK (22745), James J (22746), 18 December 2003.

#### ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Tiwari AK (22776) wef 18 December 2003.

#### LGS BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Khurana D (22749) wef 18 December 2003.

#### ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Singh Suresh (22761), George JM (22762), Harshvardhan Sharma (22763), Singh Surya Bhan (22764), Rajoo Vijay (22765), Joshi S (22767), Manthiramoorthy S (22768), Anand N (22769), Puneet Wanchu (22770), Pandey SK (22771), Paranjpe M (22772), Das MR (22773), Hegde SG (22774), Wahi V (22775), Pant D (22778), K Rakesh Kumar (22779), Reddy TS (22780), T Selwyn (22781), Bobby Mayandi Thaver (22782), 18 December 2003.

#### LGS BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Iyer RR (22783), Khan G (22784), Satish N (22785), Singh S K (22786), Gayan AK (22787), Bakshi Vikram (22788), Kumar Ravinder (22789), Philipose J (22790), Singh PK (22791), Rajwar CS (22792), Tripathi Y (22793), Taneja LK (22794), Vidyadhara Prasad N (22795), Anand Surtibhavi (22796), 18 December 2003.

#### ACCTS BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

PK Gupta (22798), S Kukreti (22799), Gupta R (22800), Datta V (22801), Kamal Kant Hira (22802), Selva Kumar S (22803), Bhanu Prakash TJ (22804), Roshan KJ (22805), 18 December 2003.

#### ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

KC Biswas (22302), AK Sharma (22303), BK Rath (22305), RC Sharma (22306), RP Singh (22307), M Raghunathan (22309), NV Chacko (22310), AK De (22311), BCS Pillai (22312), D Basu (22313), RL Sharma (22314), LD Pandey (22315), RB Singh (22316), DS Yadav (22317), G Nagamani (22318), M Ali (22319), MA Pasha (22320), SS Gaur (22321), A Chakraborty (22322), 06 February 2004.

#### ACCTS BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

AP Karunakaran (22325), 06 February 2004.

## EDN BRANCH

Ft Lt to be Substantive Sqn Ldr

SC Singh (22327), 06 February 2004.

## MET BRANCH

Ft Lt to be Substantive Sqn Ldr

R Shahi (22329), 06 February 2004.

S SRIVASTAV  
Sqn Ldr  
DDPO 3(D)

## ARMY BRANCH

No. 247, dated 21st April 2004.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army on the service well dates noted against them, earlier than their normal date of retirement of their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Maj Prakash Patil (IC-35737), ASC—15 Jul 96 (AN)

Capt CV Surja Prakash Rao (SL-3586), Engrs—26 Aug 96 (AN)

Maj DS Komaraju (IC-38866), AOC—01 Sept 96 (AN)

Lt Col Nirinder Mohan (IC-33137), AEC—26 Nov 96 (FN)

Lt Col (TS) Atul Chaudhary (IC-30911), Arty—25 Dec 96 (AN)

Lt Col (TS) Kamlesh Kumar Misra (IC-32598), AEC—19 Mar 97 (AN)

Maj TS Madhavan (SL-2983), EME—15 Apr 97 (FN)

Capt Krishan Kumar (SL-3649), Sigs—31 May 97 (AN)

Lt Col (TS) TK Bhaskaran (IC-33314), Int—31 May 97 (AN)

Lt Col Rai Vishwa Nath (IC-29363), Jag—30 Jun 97 (AN)

Lt Col (TS) Gurmeet Singh Parhar (IC-30647), AEC—18 Aug 97 (AN)

Lt Col (TS) RKM Toniyot (IC-27296), Arty—23 Aug 97 (AN)

Maj KP Raveendran (IC-35725), AOC—15 Jul 97 (AN)

Lt Col J Vijaya Kumar Ramchandra (IC-36261), Arty—06 Aug 97 (AN)

Capt Moti Lal Menaria (SL-3619), GS (RO)—30 Sep 97 (AN)

Maj MB Shanmugham (SL-3041), GS—11 Oct 97 (AN)

Lt Col (TS) Randhir (IC-32331), AOC—31 Oct 97 (AN)

Lt Col (TS) Verma SK Basik (IC-27597), AEC—14 Sep 97 (AN)

Lt Col MS Chowhan (IC-23955), Arty—03 Nov 97 (AN)

Lt Col (TS) Joseph Prem Kumar (IC-32940), Int—10 Nov 97 (AN)

Lt Col (TS) Virendra Singh Arya (IC-27930), AEC—31 Oct 97 (AN)

A/Lt Col DL Bunyan (IC-31038), AD Arty—17 Nov 97 (AN)

Maj Jeyaraj Puthisigamani (IC-38334), AOC—03 Nov 97 (AN)

Lt Col (TS) Narinder Singh (IC-25888), Int—30 Nov 97 (AN)

Lt Col (TS) NKS Yadav (IC-27399), Arty—20 Jan 98 (AN)

Lt Col (TS) MP Singh Oberoi (IC-28881), Arty—24 Jan 98 (AN)

Maj Rasgovinda Sahu (IC-39112), AD Arty—04 Jan 98 (AN)

Lt Col (TS) Virender Singh Kohli (IC-27499), Arty—03 Feb 98 (AN)

Maj Paul Singh (IC-38642), AD Arty—03 Feb 98 (AN)

Lt Col (TS) Ashok Bembey (IC-27791), AD Arty—23 Nov 97 (AN)

Lt Col (TS) Kohli Bal Krishan (IC-32697), AOC—07 Feb 98 (AN)

Maj PS Nehra (IC-37064), ASC—17 Feb 98 (AN)

Lt Col Ghanshyam Singh (V-314), RVC—17 Feb 98 (AN)

Lt Col (TS) NR Baberwal (IC-30610), AEC—16 Dec 97 (AN)

Lt Col GK Sood (IC-33562), Int—01 Mar 98 (AN)

Maj Santokh Singh (IC-35517), AOC—07 Jan 98 (AN)

Maj Sunil Kohli (IC-37069), AOC—23 Mar 98 (AN)

Maj YK Kandhari (IC-36805), Arty—23 Feb 98 (AN)

Lt Col Singhal Anil Kumar (IC-38425), Inf—30 Nov 97 (AN)

Lt Col Kheterpal Ranjit Singh (IC-36067), AD Arty—04 Dec 97 (AN)

Lt Col (TS) Rao Chandra Shekhar (IC-35047), Sigs—04 Dec 97 (AN)

Lt Col (TS) Sudip Kumar Das (IC-38608), Sigs—04 Dec 97 (AN)

Lt Col (TS) GR Nihalani (IC-28575), ASC—05 Dec 97 (AN)

Capt GS Reddy (SL-3928), Engrs—11 Oct 97 (AN)

Maj SS Sandhu (IC-38967), Inf—31 Oct 97 (AN)



Maj Chaudhary RKS (IC-47291), Inf—31 Dec 2K (AN)  
 Lt Col Deka Gopi Kant (IC-34141), Inf—31 Dec 2K (AN)  
 Lt Col Kar Sunirmal (IC-35029), Sigs—29 Dec 2K (AN)  
 Capt Joginder Singh (SL-3905), EME—27 Dec 2K (AN)  
 Lt Col VS Narayanan (IC-33286), Sigs—11 Nov 2K (AN)  
 Maj Ravi Gogna (IC-48595), AOC—16 Jan 01 (AN)  
 Maj Avtar Singh (IC-41127), Inf—09 Jan 01 (FN)  
 Lt Col PR Ganguly (IC-25740), ASC—22 Jan 01 (AN)  
 Lt Col (TS) Gupta Ajay (IC-35951), Sigs—30 Dec 2K (FN)  
 Lt Col (TS) RM Sharma (IC-36860), Engrs—10 Nov 2K (AN)  
 Capt Rajdeep Brar (IC-43244), AOC—22 Jan 01 (AN)  
 Lt Col (TS) Dharmendar Gulati (IC-31431), ASC—30 Jan 01 (AN)  
 Maj Sushil Kumar (IC-38869), Sigs—05 Jan 01 (AN)  
 Lt Col (TS) BRM Reddi (IC-33838), AD Arty—26 Feb 01 (AN)  
 Maj Ralhi KS (IC-47315), Arty—10 Feb 01 (AN)

R K SHARMA  
 Jt. Director  
 MS/PR

#### AIR BRANCH

No. 248, dated 19th April 2004.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from service on superannuation.

#### INDIAN AIR FORCE

##### F (P) BRANCH

Wg Cdr N Pawar (12548), 30 Apr 2001 (AD)  
 Wg Cdr P Puri (12513), 31 Jul 2001 (AD)  
 Wg Cdr SU Apte (12380), 30 Nov 2001 (AD)

##### AE (M) BRANCH

Sqn Ldr NK Tripathy (BC-17932), 31 Jan 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) SK Gangopadhyay (BC-19746), 31 Jan 2001 (AD)  
 Wg Cdr Sylam CJA (12817), 28 Feb 2001 (AD)  
 Wg Cdr (TS) JM Malhotra (12819), 28 Feb 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) PKS Pillai (BC-19279), 29 Feb 2001 (AD)  
 Sqn Ldr (Actg W/C) CR Kaushik (16927), 31 Mar 2001 (AD)  
 Wg Cdr KB Purohit (12649), 30 Apr 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) JR Sharma (BC-19276), 30 Apr 2001 (AD)

Flt Lt BL Sajjan (BC-20532), 30 Apr 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) RC Pathania (BC-19747), 31 May 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) Ninan K Thomas (BC-20527), 31 May 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) CL Kuchroo (BC-20529), 31 May 2001 (AD)  
 Wg Cdr Vijay (13022), 30 Jun 2001 (AD)  
 Wg Cdr (TS) MP Chawla (12822), 31 Jul 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) SD Pandey (BC-18940), 31 Jul 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) NT Patil (BC-18947), 31 Jul 2001 (AD)  
 Wg Cdr RS Chouhan (15602), 31 Aug 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) RC Singh (BC-19749), 31 Aug 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) BS Bal (BC-19748), 31 Oct 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) MB Ramakrishaniah (BC-20525), 31 Oct 2001 (AD)  
 Wg Cdr (TS) HK Aggarwal (13051), 30 Nov 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) IS Michra (BC-18929), 30 Nov 2001 (AD)  
 Wg Cdr N B Shikhare (15506), 30 Nov 2001 (AD)  
 Wg Cdr SC Diwan (13023), 31 Dec 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) RP Kakar (19755), 31 Dec 2001 (AD)

##### AE (L) BRANCH

Wg Cdr (TS) Iqbal Singh (11717), 31 Jan 2001 (AD)  
 Sqn Ldr SM Guddad (BC-17950), 31 Jan 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) RN Das (BC-19306), 31 Jan 2001 (AD)  
 Sqn Ldr ML Garg (BC-17949), 28 Feb 2001 (AD)  
 Sqn Ldr KK Sethi (BC-18375), 31 Mar 2001 (AD)  
 Flt Lt JS Jus (BC-18378), 31 Mar 2001 (AD)  
 Wg Cdr N K Prasad (11197), 30 Apr 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) SS Kadian (BC-19295), 30 Apr 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) BS Mann (BC-19777), 30 Apr 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) RS Sharma (BC-19311), 30 Jun 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) T Tripathi (BC-18963), 30 Jun 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) N Krishnamurthy (BC-18959), 30 Jun 2001 (AD)  
 Sqn Ldr PC Katoch (17242), 30 Jun 2001 (AD)  
 Wg Cdr P Patnaik (11723), 31 Aug 2001 (AD)  
 Flt Lt (Actg S/L) MG Vader (BC-19785), 31 Aug 2001 (AD)

Wg Cdr JK Mitra (11725), 30 Sep 2001 (AD)

Wg Cdr SSJ Naqvi (13184), 30 Sep 2001 (AD)

Sqn Ldr RG D Souza (BC-17550), 30 Sep 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) KS Sehra (BC-19310), 31 Oct 2001 (AD)

Wg Cdr (TS) G Madhusudan (13284), 30 Nov 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) BK Pal (BC-19778), 31 Dec 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) S Chandran (BC-19304), 31 Dec 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) RC Bhojwani (BC-18965), 31 Dec 2001 (AD)

Sqn Ldr RS Tripathi (BC-18372), 31 Dec 2001 (AD)

#### ADM BRANCH

Sqn Ldr V Dasan (BC-18721), 31 Jan 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) BB Kute (BC-17610), 28 Feb 2001 (AD)

Sqn Ldr Mohinder Singh (BC-17960), 28 Feb 2001 (AD)

Sqn Ldr LS Rathore (BC-17251), 28 Feb 2001 (AD)

Sqn Ldr BK Kamble (BC-17980), 31 Mar 2001 (AD)

Sqn Ldr SP Tejpal (BC-17562), 30 Apr 2001 (AD)

Sqn Ldr Kalipada Dey (BC-18207), 30 Apr 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) L Kumar (BC-19609), 30 Apr 2001 (AD)

Sqn Ldr K Singh (BC-18396), 31 May 2001 (AD)

Sqn Ldr PU Sreedharan (BC-17258), 31 May 2001 (AD)

Sqn Ldr K Singh (BC-18396), 31 May 2001 (AD)

Sqn Ldr S Bhagwan (17496), 30 Jun 2001 (AD)

Wg Cdr AHM Sinha (12334), 31 Jul 2001 (AD)

Sqn Ldr DN Gupta (BC-17581), 31 Jul 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) HL Bhandari (BC-20395), 30 Sep 2001 (AD)

Flt Lt RL Bhog (BC-20410), 30 Sep 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) KC Dani (BC-20417), 30 Sep 2001 (AD)

Flt Lt DC Laxman (BC-19608), 31 Oct 2001 (AD)

Flt Lt (Actg S/L) K Singh (BC-20411), 31 Oct 2001 (AD)

Sqn Ldr TP Madhar (BC-18206), 30 Nov 2001 (AD)

Sqn Ldr JR Bali (BC-17971), 31 Dec 2001 (AD)

Sqn Ldr RD Joshi (BC-17959), 31 Dec 2001 (AD)

#### ACCTS BRANCH

Flt Lt (Actg S/L) RK Mukhopadhyay (BC-18999), 28 Feb 2001 (AD)

Sqn Ldr VA Vaidyanathan (BC-17259), 30 Apr 2001 (AD)

Wg Cdr B Bhowmick (12738), 30 Nov 2001 (AD)

Wg Cdr VS Sista (12731), 31 Dec 2001 (AD)

#### LGS BRANCH

Wg Cdr R Dixit (12357), 30 Apr 2001 (AD)

Flt Lt MK Sukumaran (BC-20424), 31 May 2001 (AD)

Wg Cdr (TS) BPS Chandi (12497), 31 Aug 2001 (AD)

Wg Cdr HS Waraich (12789), 31 Dec 2001 (AD)

Wg Cdr KK Puri (12720), 31 Dec 2001 (AD)

#### MET BRANCH

Sqn Ldr S Singh (BC-17969), 31 Mar 2001 (AD)

Wg Cdr PK Sharma (11986), 31 Jul 2001 (AD)

#### EDN BRANCH

Sqn Ldr (Actg W/C) Sudershan Pal (16665), 31 Jul 2001 (AD)

PANTO  
Wg Cdr  
JDPO-3(C)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 249, dated 20th April 2004.—Consequent upon the death of Shri JC Deswal, TO 'A', HQ-Directorate of Budget Finance & Accounts on 15.01.2004, the name of the officer is struck off strength w/f 16.01.2004.

JK KHADWAL  
Jt. Dir (Pers)

#### (ARMY BRANCH)

#### CORRIGENDUM

No. 250, dated 15th April 2004.—In Ministry of Defence Notification No. 589, dated 10 Sep 2003 published in Gazette of India No. 42, dated 18 Oct 2003 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below to be Nb Ris at page No. 1360.

To be Nb Ris

For

Dfr Dhruv Dev Singh Rama (No. 1064635W now JC-240141F), 01 Apr 2003\*

Read

Dfr Dhruv Dev Singh Rana (No. 1064635W now JC-240141F), 01 Apr 2003\*

For

Dfr Ram Kehlawar Gupta (No. 1073710W now JC-240149N), 17 Apr 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Ram Khelawan Gupta (No. 1073710W now JC-240149N), 17 Apr 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr Pramatha Kumar Biswas (No. 1066076W now JC-240155F), 21 Apr 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Parmatha Kumar Biswas (No. 01066076W now JC-240155F), 21 Apr 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

In Ministry of Defence Notification No. 361 dated 23 May 2003 published in Gazette of India No. 25 dated 21 Jun 2003 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured corps' below to be Nb Ris at page No. 776.

To be Nb Ris

*For*

Dfr Bachan Singh (No. 1065248N now JC-239950H), 08 Jan 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Bachan Singh (No. 1065248N now JC-239953H), 08 Jan 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr Bhawani Singh (No. 1078214Y now JC-239971L), 01 Jan 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Bhawani Singh (No. 1078214Y now JC-239971L), 06 Jan 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

In Ministry of Defence Notification No. 265 dated 28 Mar 2003 published in Gazette of India No. 18 dated 03 May 2003 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below to be Nb Ris at page No. 587.

To be Nb Ris

*For*

Dfr Shiv Pal Singh (No. 1065070H now JC-239784M), 03 Oct 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Shiv Pal Singh (No. 1065070H now JC-239784M), 03 Dec 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr P Siva Satan (No. 1068071W now JC-239896M), 21 Nov 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr P Siva Balan (No. 1068071W now JC-239896M), 21 Nov 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr Sant Singh (No. 1069725F now JC-239912Y), 29 Nov 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Bant Singh (No. 1069725F now JC-239912Y), 29 Nov 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr Narendra Singh (No. 1070235A now JC-239921A), 01 Oct 2002\*

Dfr Narendra Singh (No. 1070235A now JC-239921A), 01 Dec 2002\*

*For*

Dfr Baldev Singh (No. 1066568P now JC-239931K), 18 Dec 2002\*

*Read*

Dfr Baldev Singh (No. 1066568P now JC-239931K), 18 Dec 2002\*

*For*

Dfr Mahendiran D (No. 1064940F now JC-239954L), 23 Dec 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Mahendiran D (No. 1064640F now JC-239954L), 23 Dec 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

In Ministry of Defence Notification No. 652 dated 14 Oct 2003 published in Gazette of India No. 46 dated 15 Nov 2003 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below to be Nb Ris at page No. 1538.

To be Nb Ris

*For*

Dfr Harpal Singh (No. 10776793X now JC-240114X), 12 Apr 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2002 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Harpal Singh (No. 1076793X now JC-240114X), 12 Apr 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2002 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr Ram Singh (No. 1063169A now JC-240183N), 26 May 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Ram Singh (No. 1063169AA now JC-240183N), 26 May 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr G. Majbut Singh Sengar (No. 1065946W now JC-240194A), 07 May 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Majbut Singh Sengar (No. 1065946W now JC-240194A), 07 May 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr Subhash Chander Karmakar (No. 1068487N now JC-240197M), 24 May 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Subhash Chandra Karmakar (No. 1068487N now JC-240197M), 24 May 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

*For*

Dfr Ganauri Prasad (No. 1068706K now JC-240212X), 23 Jun 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

*Read*

Dfr Ganauri Prasad (No. 1068706K now JC-240212X), 02 Jun 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 251, dated 20th April 2004.—In Ministry of Defence Gazette Notification No. 05 published in the Gazette of India on 01 Feb 2003 under the heading, "REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) sub heading "Lt to be Quasi Substantive Capt' in so far as it relates to DS-12016X Capt A Misuriya may please be amended as follows:—

*For*—A Misuriya (DS-12016X), 15 Nov 2002

*Read*—A Misuriya (DS-12016X), 15 Nov 2000

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl DGDS

#### NATIONAL CADET CORPS

Lt to Capt

No. 252, dated 16th Apr 2004.—Following amendments may kindly be carried out in the Draft Gazette Notification dated 12 Jan 2004:—

*For*—5. NCC/GD/PC-12505 Lt NG Subadani Devi, 07 May 03

*Read*—5. NCC/GD/PC-12505 Lt NG Subadani Devi, 07 Jun 03

PC ROY  
Col  
Director (MS)